



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



# **PATRIOTIC IAS**

**THE HINDU NEWSPAPER**

**DAILY CURRENT AFFAIRS**

**22**

**MARCH 2025**

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>


22\_03\_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

**1.Indonesia Raises Alert as Mount Lewotobi Laki Laki Volcano Erupts**

इंडोनेशिया ने माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट पर अलर्ट बढ़ाया

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**



## JAKARTA

### Indonesia raises alert as Mount Lewotobi Laki Laki volcano erupts



AP

#### GS Paper 1: Geography

Indonesia's Mount Lewotobi Laki Laki erupted thrice on Friday, sending ash 8,000 metres (26,000 feet) high and injuring several residents in the nearby villages. Authorities raised the eruption alert to the highest level and expanded the danger zone from seven to eight kilometres. Flights to Bali were cancelled. AP

- Several residents in nearby villages were injured.  
आसपास के गांवों में कई निवासी घायल हुए।
- Authorities raised the eruption alert to the highest level.  
अधिकारियों ने ज्वालामुखी विस्फोट का अलर्ट उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया।
- The danger zone was expanded from seven to eight kilometres.  
खतरे के क्षेत्र को सात से बढ़ाकर आठ किलोमीटर कर दिया गया।
- Flights to Bali were cancelled.  
बाली जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं।

### Indonesia Raises Alert as Mount Lewotobi Laki Laki Volcano Erupts

इंडोनेशिया ने माउंट लेवोटोबी

लाकी लाकी ज्वालामुखी

विस्फोट पर अलर्ट बढ़ाया

Indonesia's Mount Lewotobi Laki Laki erupted thrice on Friday.

इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी शुक्रवार को तीन बार फटा।

- The eruption sent ash 8,000 metres (26,000 feet) high.  
इस विस्फोट ने 8,000 मीटर (26,000 फीट) ऊंचाई तक राख भेजी।



## *Rising spirit*



A man holds a portrait of Abdullah Ocalan, founder of the Kurdistan Workers' Party who is serving time in a Turkiye prison, during a **Nowruz** celebration, which marks the New Year according to the Persian calendar and the first day of spring in Diyarbakir, Turkiye, on Friday. AFP

GS Paper I: A&C

## TOPICS COVERED (GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations))

### 1. Judge's transfer is not related to 'rumours': SC

जज का तबादला 'अफवाहों' से जुड़ा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

### 2. India, Malaysia plan counter-terrorism exercises for 2026

भारत और मलेशिया ने 2026 के लिए आतंकवाद-रोधी अभ्यास की योजना बनाई



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- 3. Dhankhar reminds Rajya Sabha MPs of NJAC Bill**  
धनखड़ ने राज्यसभा सांसदों को NJAC विधेयक की याद दिलाई
- 4. LS approves Demands for Grants of ₹50 lakh crore for various Ministries**  
लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए ₹50 लाख करोड़ के अनुदान मांगों को मंजूरी दी
- 5. Do not publish NIRF ranking for 2025: HC to Education Ministry**  
2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग प्रकाशित न करें: उच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया
- 6. Navigating differences**  
विविधताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
- 7. India's marginalised Parliament in budgetary affairs**  
भारत में बजट मामलों में संसद की सीमित भूमिका
- 8. Charting a route for IORA under India's chairship**  
भारत की अध्यक्षता में आईओआरए के लिए मार्ग तैयार करना



# Judge's transfer is not related to 'rumours': SC

SC says the proposal to transfer Justice Yashwant Varma was based on the Collegium's procedure; it adds the transfer proposal has been studied by the Collegium which has sought feedback from consultee judges of the SC and Chief Justices of HCs; Delhi HC has initiated an internal inquiry into 'incident', and findings will be reviewed by CJI

## GS Paper II: Judiciary

The Hindu Bureau  
NEW DELHI

The Supreme Court issued a statement on Friday that "misinformation and rumours" are being spread with regard to an "incident" at the residence of Delhi High Court judge, Justice Yashwant Varma, compelling the apex court Collegium to transfer him out.

The statement from the Supreme Court came after a report by *The Times of India*, followed by source-based online media reports, that a "huge pile of cash" was recovered when a fire broke out in the residential bungalow of the judge.

The press note issued by the Supreme Court, while confirming the existence of

a proposal to transfer Justice Varma, stated categorically that it was unconnected with an in-house enquiry procedure into the "incident".

"The proposal for transfer of Justice Yashwant Varma, who is the second seniormost judge in the Delhi High Court and a member of the Collegium to his parent High Court, i.e., the High Court of Judicature at Allahabad, where he will be ninth in seniority, is independent and separate from the in-house enquiry procedure," it informed.

The apex court note said the transfer proposal has been examined by the Supreme Court Collegium. The Collegium has further asked for feedback on the proposal from consultee judges of the Supreme

## Judicial path

A brief look at the career of Justice Yashwant Varma, born on January 6, 1969 in Allahabad

1992: Enrolled as an advocate

October 13, 2014

Appointed Additional Judge, Allahabad High Court

February 1, 2016

Took oath as Permanent Judge, Allahabad High Court



October 11, 2021

Appointed Judge, Delhi High Court

## Is Allahabad HC a trash bin, asks bar association

NEW DELHI

Responding to the "proposed repatriation" of Justice Yashwant Varma to the Allahabad High Court, the Bar Association of the court has asked if the High Court was "a trash bin". » PAGE 4

The press note referred to the Supreme Court judgment in *Additional District and Sessions Judge 'X' versus Registrar General, High Court of Madhya Pradesh* of 2015.

## Stages of probe

The judgment elucidates the stages of the in-house enquiry procedure, which is meant to "ensure exclusion of favouritism, prejudice or bias".

The in-house enquiry procedure against sitting High Court judges is compartmentalised into two stages.

The first stage involves the prima facie ascertainment by the Chief Justice of the High Court concerned, in this case the Delhi High Court Chief Justice, of the veracity of the allegations and whether a deeper

probe was called for. This would be done on the basis of a logical assessment made on a consideration of the response of the judge concerned.

The second stage of the procedure is monitored by the Chief Justice of India and is kicked off if he endorses the High Court Chief Justice's report recommending a deeper probe. In such a situation, the CJI would constitute a three-member committee of two Chief Justices of High Courts and a judge of a High Court. The committee can devise its own procedure of investigation, provided it follows the principle of natural justice. The judge in question would have a fair opportunity to repudiate the allegations levelled against him.

Court, the Chief Justices of the High Courts concerned and also from Justice Varma. "Responses received will be examined and, thereupon, the Collegium will pass a resolution," the statement said.

## In-house enquiry

On the "incident", the top court said the Chief Justice

of the Delhi High Court, Justice D.K. Upadhyaya, on receiving information, had commenced an in-house enquiry collecting details and evidence. The High Court Chief Justice had begun the enquiry even prior to a Supreme Court Collegium meeting on March 20. The enquiry report would be submitted to

Chief Justice of India Sanjiv Khanna on March 21. The Delhi High Court Chief Justice's report would be "examined and processed for further and necessary action", the press note said.

The nature of the enquiry and report are confidential to protect the individual integrity of the judge concerned.

## Judge's transfer is not related to 'rumours': SC

### जज का तबादला 'अफवाहों' से जुड़ा नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

The Supreme Court issued a statement on Friday, saying that "misinformation and rumours" are being spread regarding an "incident" at the residence of Delhi High Court judge, Justice Yashwant Varma, compelling the apex court Collegium to transfer him.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर हुई "घटना" को लेकर "गलत सूचना और अफवाहें" फैलाई जा रही हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को उनका तबादला करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- The statement from the Supreme Court followed a report by *The Times of India*, and later source-based online media reports, stating that a "huge pile of cash" was recovered after a fire broke out at the judge's residential bungalow.

यह बयान टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और बाद में सोर्स-आधारित ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया, जिसमें कहा गया कि न्यायाधीश के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद "बड़ी मात्रा में नकदी" बरामद हुई।



- The **press note** issued by the Supreme Court confirmed that there is a **proposal to transfer Justice Varma** but stated that it is **unconnected with the in-house enquiry procedure** regarding the “incident”.  
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस नोट में यह पुष्टि की गई कि न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण का प्रस्ताव है, लेकिन यह "घटना" से संबंधित आंतरिक जांच प्रक्रिया से असंबंधित है।
- The **Collegium's proposal** states that Justice Yashwant Varma, the **second seniormost judge** of the Delhi High Court, is to be transferred to his **parent High Court**, i.e., the **Allahabad High Court**, where he will be **ninth in seniority**.  
कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, को उनके मूल हाई कोर्ट, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वह वरिष्ठता में नौवें स्थान पर होंगे।
- The Supreme Court stated that the **transfer proposal** has been **examined by the Collegium**. It has also **sought feedback** from **consultee judges of the Supreme Court, Chief Justices of the concerned High Courts, and Justice Varma himself**.  
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण प्रस्ताव को कॉलेजियम द्वारा जांचा गया है। इसने सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, और न्यायमूर्ति वर्मा स्वयं से फीडबैक मांगा है।
- The **responses received** will be **examined**, and based on them, the **Collegium will pass a resolution**.  
प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी, और उनके आधार पर कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा।
- The **Delhi High Court** has **initiated an internal inquiry** into the “incident”, and its **findings will be reviewed by the Chief Justice of India (CJI)**.  
दिल्ली हाई कोर्ट ने "घटना" की आंतरिक जांच शुरू कर दी है, और इसकी रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा समीक्षा की जाएगी।

## In-house enquiry आंतरिक जांच

- On the “incident”, the **top court** said that the **Chief Justice of the Delhi High Court, Justice D.K. Upadhyaya**, on receiving information, had **commenced an in-house enquiry**, collecting details and evidence.  
"घटना" पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी.के. उपाध्याय, को जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने आंतरिक जांच शुरू की, जिसमें विवरण और साक्ष्य एकत्र किए गए।
- The **High Court Chief Justice** had begun the **enquiry even before a Supreme Court Collegium meeting on March 20**.  
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक से पहले ही जांच शुरू कर दी थी।



- The enquiry report would be submitted to Chief Justice of India Sanjiv Khanna on March 21.  
जांच रिपोर्ट 21 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी जाएगी।
- The Delhi High Court Chief Justice's report would be examined and processed for further and necessary action, the press note said.  
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संसाधित किया जाएगा, प्रेस नोट में कहा गया।
- The nature of the enquiry and report is confidential to protect the individual integrity of the judge concerned.  
जांच और रिपोर्ट की प्रकृति गोपनीय है ताकि संबंधित न्यायाधीश की व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा की जा सके।
- The press note referred to the Supreme Court judgment in Additional District and Sessions Judge 'X' versus Registrar General, High Court of Madhya Pradesh (2015).  
प्रेस नोट ने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले "अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश 'X' बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय" का संदर्भ दिया।

## Stages of probe

### जांच के चरण

- The judgment elucidates the stages of the in-house enquiry procedure, which is meant to ensure exclusion of favouritism, prejudice, or bias.  
फैसले में आंतरिक जांच प्रक्रिया के चरणों को स्पष्ट किया गया है, जिसका उद्देश्य पक्षपात, पूर्वाग्रह या भेदभाव को समाप्त करना है।
- **The in-house enquiry procedure against sitting High Court judges is compartmentalised into two stages.**  
बैठे हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आंतरिक जांच प्रक्रिया दो चरणों में विभाजित होती है।
  - **First stage:** It involves **prima facie ascertainment by the Chief Justice of the High Court concerned**, in this case, the **Delhi High Court Chief Justice**, regarding the **veracity of the allegations** and whether a **deeper probe is required**.  
पहला चरण: इसमें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, द्वारा आरोपों की सत्यता की प्रारंभिक जांच की जाती है और यह तय किया जाता है कि गहरी जांच की आवश्यकता है या नहीं।
  - This is done based on a **logical assessment** after **considering the response of the judge concerned**.  
यह संबंधित न्यायाधीश की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद एक तार्किक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Second stage:** This is **monitored by the Chief Justice of India (CJI) and initiates only if he endorses the High Court Chief Justice's report, recommending a deeper probe.**  
दूसरा चरण: यह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा निगरानी में किया जाता है और केवल तब शुरू होता है जब वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं, जो गहरी जांच की सिफारिश करता है।
- If required, the **CJI constitutes a three-member committee, consisting of two Chief Justices of High Courts and one High Court judge.**  
यदि आवश्यक हो, तो CJI तीन-सदस्यीय समिति का गठन करते हैं, जिसमें दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।
- The **committee can devise its own procedure** for investigation, provided it follows the principle of natural justice.  
समिति अपनी स्वयं की जांच प्रक्रिया बना सकती है, बशर्ते कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करे।

PATRIOTIC IAS



- The judge in question would have a fair opportunity to repudiate the allegations leveled against him.  
संबंधित न्यायाधीश को अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

## India, Malaysia plan counter-terrorism exercises for 2026

GS Paper II:

The India-Malaysia  
NEW DELHI

At the 14th meeting of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) Experts' Working Group on Counter-Terrorism (EWG on CT), held in New Delhi, co-chairs India and Malaysia announced plans for a table-top exercise in Malaysia in 2026 and a field training exercise in India in 2027. These exercises form part of the 2024-2027 work plan for the group.

"During the two-day meeting, discussions were held to focus on evolving a robust and comprehensive strategy to tackle the evolving threat of terrorism and extremism. The meeting was aimed to share the on-ground experience of the Defence Forces of ASEAN countries and its dialogue partners. The meeting laid a foundation for the activi-

ties, exercises, meetings and workshops planned for the current cycle," the Defence Ministry said.

Two days earlier, the European Union (EU) hosted a technical workshop in New Delhi on preventing and countering violent extremism, held on the sidelines of the Raisina Dialogue. Organised in cooperation with the Embassy of the Netherlands, the workshop was inaugurated by EU Ambassador to India Hervé Delphin.

"By sharing expertise we are strengthening our collective ability to prevent and counter violent extremism while upholding democratic values and human rights," said Maciej Stadejek, Director for Security and Defence Policy in the European External Action Service.

India and the EU held their first joint workshop on online terrorist content in 2022.

counter terrorism and extremism.

दो दिवसीय बैठक के दौरान, आतंकवाद और चरमपंथ से निपटने के लिए एक मजबूत और व्यापक रणनीति विकसित करने पर चर्चा की गई।

- The meeting aimed to share on-ground experiences of the Defence Forces of ASEAN countries and its dialogue partners.

बैठक का उद्देश्य आसियान देशों और उनके संवाद भागीदारों की रक्षा सेनाओं के जमीनी अनुभव साझा करना था।

## India, Malaysia plan counter-terrorism exercises for 2026

भारत और मलेशिया ने 2026 के लिए

आतंकवाद-रोधी अभ्यास की योजना बनाई

At the 14th meeting of the ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) Experts' Working Group on Counter-Terrorism (EWG on CT), held in New Delhi, India and Malaysia announced plans for a table-top exercise in Malaysia in 2026 and a field training exercise in India in 2027.

नई दिल्ली में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की

बैठक-प्लस (ADMM-Plus) विशेषज्ञ कार्य समूह

(EWG on CT) की 14वीं बैठक में, भारत और

मलेशिया ने 2026 में मलेशिया में टेबल-टॉप अभ्यास

और 2027 में भारत में फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास

आयोजित करने की योजना की घोषणा की।

- These exercises form part of the 2024-2027 work plan for the group.

ये अभ्यास 2024-2027 कार्य योजना का हिस्सा हैं।

- During the two-day meeting, discussions focused on developing a robust and comprehensive strategy to



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The discussions **laid the foundation** for upcoming activities, exercises, meetings, and workshops planned for the current cycle.  
चर्चाओं ने इस चक्र में योजना बनाई गई गतिविधियों, अभ्यासों, बैठकों और कार्यशालाओं की आधारशिला रखी।
- **Two days earlier**, the European Union (EU) hosted a **technical workshop in New Delhi** on preventing and countering violent extremism, held on the **sidelines of the Raisina Dialogue**.  
दो दिन पहले, यूरोपीय संघ (EU) ने नई दिल्ली में एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य हिंसक चरमपंथ को रोकना और उससे निपटना था, यह रायसीना संवाद के दौरान आयोजित किया गया था।
- The workshop was **organized in cooperation** with the **Embassy of the Netherlands** and was **inaugurated by EU Ambassador to India, Hervé Delphin**.  
इस कार्यशाला का आयोजन नीदरलैंड के दूतावास के सहयोग से किया गया था और इसे भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत, हेर्वे डेलफिन ने उद्घाटन किया।
- **Maciej Stadejek, Director for Security and Defence Policy** in the **European External Action Service**, emphasized that **sharing expertise strengthens collective ability** to counter **violent extremism** while upholding **democratic values and human rights**.  
मैसिएज स्टाडेजेक, जो यूरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा में सुरक्षा और रक्षा नीति निदेशक हैं, ने कहा कि विशेषज्ञता साझा करने से हिंसक चरमपंथ से निपटने की सामूहिक क्षमता मजबूत होती है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा होती है।
- **India and the EU** held their **first joint workshop on online terrorist content in 2022**.  
भारत और यूरोपीय संघ ने 2022 में ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री पर अपनी पहली संयुक्त कार्यशाला आयोजित की थी।

## Raisina Dialogue

### रायसीना संवाद

- The **Raisina Dialogue** is India's **premier annual conference on geopolitics and geo-economics**, held in **New Delhi** since 2016.  
रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है जो भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर केंद्रित होता है और 2016 से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
- It is jointly organized by the **Observer Research Foundation (ORF)** and the **Ministry of External Affairs**.  
इसे ऑब्जरवर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) और विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : info@patrioticias.in**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : patrioticias.in**



- The dialogue brings together **global leaders, policymakers, academics, and business executives** to discuss pressing **international issues**.

यह संवाद वैश्विक नेता, नीति निर्माता, शिक्षाविद और व्यावसायिक अधिकारी को एक मंच पर लाता है ताकि वे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकें।

## Origins and Structure

### उत्पत्ति और संरचना

- **Established in 2016**, the Raisina Dialogue was conceived to address the most **challenging global issues**.  
2016 में स्थापित, रायसीना संवाद को दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था।
- It is a **multi-stakeholder, cross-sectoral discussion**, involving **heads of state, cabinet ministers, local government officials**, and thought leaders from the **private sector, media, and academia**.  
यह एक बहु-हितधारक और बहु-क्षेत्रीय चर्चा है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षाविदों के प्रमुख विचारक शामिल होते हैं।
- The dialogue is modeled after global conferences like **Singapore's Shangri-La Dialogue** and the **Munich Security Conference**.  
यह संवाद सिंगापुर के शांगरी-ला संवाद और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जैसे वैश्विक सम्मेलनों के आधार पर बनाया गया है।

## Themes and Evolution

### विषय और विकास

- Each year, the dialogue focuses on a **specific theme** reflecting current **global dynamics**.  
हर वर्ष, संवाद एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होता है जो वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता है।
- **2024 Theme: "Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create"**  
2024 का विषय: "चतुरंग: संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, निर्माण"
- **2025 Theme: "Kalachakra" (Wheel of Time), symbolizing global political cycles and change**  
2025 का विषय: "कालचक्र" (समय का चक्र), जो वैश्विक राजनीतिक चक्र और परिवर्तन को दर्शाता है।



## Raisina Dialogue 2025 Highlights

### रायसीना संवाद 2025 की मुख्य विशेषताएं

- The 2025 edition was held from **March 17-19**.  
2025 संस्करण 17-19 मार्च को आयोजित हुआ।
- Chief Guest: **New Zealand Prime Minister Christopher Luxon**.  
मुख्य अतिथि: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन।
- Key Participants: Foreign ministers from 18 nations, senior executives from major multinational businesses, and foreign policy experts.  
मुख्य प्रतिभागी: 18 देशों के विदेश मंत्री, प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ।
- Special Meetings: Directors of intelligence agencies from the **Five Eyes Alliance** convened on the sidelines.  
विशेष बैठकें: फाइव आईज एलायंस की खुफिया एजेंसियों के निदेशकों ने बैठक की।

## Significance for India's Foreign Policy

### भारत की विदेश नीति के लिए महत्व

- **Balancing Global Power Dynamics:** Managing ties with the U.S., Russia, China, and the EU.  
वैश्विक शक्ति संतुलन: अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के साथ संबंध प्रबंधन।
- **Enhancing Regional Leadership:** Strengthening South Asia and Indo-Pacific relations.  
क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना: दक्षिण एशिया और हिंद-प्रशांत संबंधों को सशक्त बनाना।
- **Positioning as a Global Mediator:** Engaging in issues like Ukraine conflict, Indo-Pacific strategies, and trade disputes.  
वैश्विक मध्यस्थ के रूप में भूमिका: यूक्रेन संघर्ष, हिंद-प्रशांत रणनीति, और व्यापार विवादों पर भागीदारी।
- **Expanding Influence in the Global South:** Focusing on economic and strategic engagement.  
ग्लोबल साउथ में प्रभाव बढ़ाना: आर्थिक और रणनीतिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना।

## Observer Research Foundation (ORF)

### ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF)

- Established in 1990, the ORF is an independent, nonpartisan think tank.  
1990 में स्थापित, ORF एक स्वतंत्र और गैर-पक्षपाती थिंक टैंक है।



- It conducts policy research on **climate, energy, cyber issues, media, economic development, and national security.**  
यह जलवायु, ऊर्जा, साइबर मुद्दे, मीडिया, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नीति अनुसंधान करता है।
- ORF collaborates closely with the **Ministry of External Affairs** to organize the **Raisina Dialogue.**  
ORF, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर रायसीना संवाद का आयोजन करता है।

## Shangri-La Dialogue

### शांगरी-ला संवाद

- The **Shangri-La Dialogue** is Asia's premier defense and security summit, attended by **defense ministers, permanent heads of ministries, and military chiefs from 28 Asia-Pacific countries.**  
शांगरी-ला संवाद एशिया का प्रधान रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, जिसमें 28 एशिया-प्रशांत देशों के रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख भाग लेते हैं।
- **Organized by the International Institute for Strategic Studies (IISS),** it has been held annually in **Singapore since 2002.**  
इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ (IISS) द्वारा आयोजित किया जाता है और 2002 से प्रतिवर्ष सिंगापुर में आयोजित किया जाता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



# Civil society groups call on govt. to not water down RTI Act

GS Paper II: RTI Act

Aroon Deep  
NEW DELHI

Over 30 civil society organisations are urging the Union government to avoid gutting the **Right to Information Act, 2005**, the National Council for People's Right to Information (NCPRI) announced on Friday. **An amendment to the RTI Act passed in 2023 – which has not yet come into effect – would drastically limit the amount of information that government agencies would be required to share**, activists said, upping pressure on the government to keep the law intact.

The issue is around Section 8(1)(j) of the RTI Act, which allows government agencies to refuse applications for information if they relate to an individual's personal information. "Studies show that this exemption is among the most common grounds to refuse information", Nikhil Dey, an NCPRI co-convenor, said at a press

## The exemption on providing personal information is on track to become a blanket prohibition

conference on Friday.

However, the section has a proviso, which allows for personal information to be disclosed if there is public interest in doing so. In 2023, the Union government, in spite of protests, removed the proviso through an Act of Parliament. This was done through the last section of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.

Since the subordinate legislation for kicking in the DPDP Act has not yet been notified, the amendment has not kicked in. The draft DPDP Rules, 2025, should not notify this amendment, and Parliament should pass a law undoing the amendment from the Act as well, said Anjali Bhardwaj, co-convenor of the NCPRI.

- The issue is around **Section 8(1)(j) of the RTI Act**, which allows government agencies to refuse applications for personal information.

यह मुद्दा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) से जुड़ा है, जो सरकारी एजेंसियों को व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित आवेदनों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है।

- Nikhil Dey, an NCPRI co-convenor, said at a press conference on Friday that studies show this exemption is one of the most common grounds for denying information.

## Civil society groups call on govt. to not water down RTI Act

नागरिक समाज समूहों ने सरकार से

आरटीआई अधिनियम को कमजोर न करने की अपील की

Over 30 civil society organisations are urging the Union government to avoid gutting the **Right to Information (RTI) Act, 2005**, the National Council for People's Right to Information (NCPRI) announced on Friday.

30 से अधिक नागरिक समाज संगठनों ने केंद्र सरकार से 2005 के सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को कमजोर न करने का आग्रह किया, राष्ट्रीय जनता की सूचना का अधिकार परिषद (NCPRI) ने शुक्रवार को यह घोषणा की।

- An amendment to the RTI Act, passed in 2023, which has not yet come into effect, would drastically limit the amount of information government agencies must share, activists said.

2023 में पारित आरटीआई अधिनियम में संशोधन, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, सरकारी एजेंसियों द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी की मात्रा को गंभीर रूप से सीमित कर देगा, कार्यकर्ताओं ने कहा।



एनसीपीआरआई के सह-संयोजक निखिल डे ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अध्ययनों से पता चलता है कि यह छूट जानकारी अस्वीकार करने के सबसे आम कारणों में से एक है।

- However, the section has a proviso, which allows personal information to be disclosed if there is public interest.

हालांकि, इस धारा में एक प्रावधान है, जो जनहित होने पर व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे की अनुमति देता है।

- In 2023, despite protests, the Union government removed this proviso through an Act of Parliament as part of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act).

2023 में, विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस प्रावधान को संसद अधिनियम के माध्यम से हटा दिया, जो कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम) का हिस्सा था।

- Since the subordinate legislation for enforcing the DPDP Act has not yet been notified, the amendment has not yet taken effect.

चूंकि DPDP अधिनियम को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियम अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए संशोधन अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

- The draft DPDP Rules, 2025, should not notify this amendment, and Parliament should pass a law undoing the amendment, said Anjali Bhardwaj, co-convenor of NCPRI.

एनसीपीआरआई की सह-संयोजक अंजलि भारद्वाज ने कहा कि 2025 के मसौदा DPDP नियमों में इस संशोधन को अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, और संसद को एक कानून पारित कर इस संशोधन को रद्द करना चाहिए।



# Dhankhar reminds Rajya Sabha MPs of NJAC Bill

After Opposition raises issue regarding a Delhi HC judge, Chairman says the law dealt with the malaise severely; he adds that he will hold talks to find a mechanism for a structured discussion

**GS Paper II: Judiciary**

NEW DELHI

Before the Supreme Court clarified on Friday that the proposed transfer of a Delhi High Court judge was not related to a fire incident at his official residence, Opposition members in the Rajya Sabha raised the issue on the floor of the House.

Congress chief whip Jairam Ramesh referred to a news report that claimed that fire brigade personnel had allegedly recovered "huge cash" from the official residence of the judge during the fire fighting operation.

Without naming the judge, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar said if the "malaise" had been dealt with, perhaps the country would not have countenanced such kind of issues.

He referred to the National Judicial Appointments Commission Bill and said the historic legislation "endorsed by this Parliament with unprecedented consensual support" unknown to parliamentary history of this country dealt with the malaise very severely.

"What bothers me is that the incident happened and did not immediately surface," he added.

The Supreme Court struck down the NJAC Act in 2015.

Earlier, Mr. Ramesh, citing Mr. Dhankhar's stand on judicial accountability, sought his statement on the issue. He also reminded the Chairman that 50



Vice-President Jagdeep Dhankhar meets Union Ministers Kiren Rijiju, Arjun Ram Meghwal, Congress MPs Jairam Ramesh and Pramod Tiwari, at Parliament House in New Delhi on Friday. ANI

MPs had submitted a notice for removing a judge of the Allahabad High Court for making unacceptable remarks.

**55 members**

Mr. Dhankhar, responding to Mr. Ramesh on the notice by MPs, said he was seized of a representation by 55 members of the House and had taken all necessary steps to get their verification.

"First mail was sent to all of them and the good thing is most of the members have responded positively, helping me perform my duty. Some members are yet to do. A mail reiterating the same has been sent to them. I have taken all procedural steps but I must share with you one concern that is engaging my attention. Of the 55 members who signed the representation, a member's signature appears on

two occasions and the member concerned has denied his signature. Now I do not wish to get into this act which may graduate to culpability to a higher level. If the number is above 50, I will proceed accordingly. Therefore, most of the members have cooperated. Those members who have not done so far, may please do it in response to the second mail sent to them. Then the process will not be delayed at my level even for a moment," he said.

On the issue of the Delhi High Court judge, Mr. Dhankhar said he had pleaded with the Leader of the House, J.P. Nadda, that the House needed to know the status of the collective exercise of Parliament on judicial accountability.

"You all will recollect if the mechanism which was passed by this House with near unanimity, with no

dissension, only one abstention in Rajya Sabha, all political parties converging, going in for the initiative of the government. I wish to find out the status of that which emanated from Indian Parliament, made sacrosanct by endorsement of 16 State Assemblies in the country and signed by the Hon'ble President under Article III of the Constitution," he said.

"If it happens with a politician, he becomes a target, a bureaucrat, an industrialist immediately and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with Leader of the House, Leader of the Opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session subject to their agreement. I will discuss this with them," he added.

**Dhankhar reminds Rajya Sabha MPs of NJAC Bill**

**धनखड़ ने राज्यसभा**

**सांसदों को NJAC विधेयक की याद दिलाई**

Before the Supreme Court clarified on Friday that the proposed transfer of a Delhi High Court judge was not related to a fire incident at his official residence, Opposition members in the Rajya Sabha raised the issue in the House.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को यह स्पष्ट करने से पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज का प्रस्तावित स्थानांतरण उनके आधिकारिक आवास पर आग की घटना से संबंधित नहीं था, राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया।

- Congress chief whip Jairam Ramesh referred to a news report stating that fire brigade personnel allegedly recovered "huge cash" from the official residence of the judge during the fire-fighting operation.

कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अग्निशमन



अभियान के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कथित तौर पर जज के आधिकारिक आवास से "बड़ी मात्रा में नकदी" बरामद की।

- Without naming the judge, **Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar** said that if the "malaise" had been dealt with, perhaps the country would not have faced such issues.

जज का नाम लिए बिना, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यदि "समस्या" को सही तरीके से निपटाया गया होता, तो शायद देश को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता।

- He referred to the **National Judicial Appointments Commission (NJAC) Bill** and said that the historic legislation was endorsed by Parliament with unprecedented consensual support, addressing the issue severely.

उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) विधेयक का जिक्र किया और कहा कि यह ऐतिहासिक कानून संसद द्वारा अभूतपूर्व सहमति समर्थन के साथ पारित किया गया था, और इस समस्या से कठोरता से निपटा गया था।

- The **Supreme Court struck down the NJAC Act in 2015.**

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC अधिनियम को निरस्त कर दिया था।

- Jairam Ramesh** cited Dhankhar's stand on judicial accountability and requested a statement on the issue.

जयराम रमेश ने धनखड़ के न्यायिक जवाबदेही पर रुख का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर बयान देने का अनुरोध किया।

- He also reminded the **Chairman that 50 MPs had submitted a notice for removing a judge of the Allahabad High Court** for making unacceptable remarks.

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को हटाने के लिए नोटिस दिया था, जिन्होंने अस्वीकार्य टिप्पणियां की थीं।

## 55 Members and Verification Process

### 55 सांसद और सत्यापन प्रक्रिया

- Dhankhar**, responding to Ramesh, said he was reviewing a representation by 55 members and had taken all necessary steps for verification.

धनखड़, रमेश को जवाब देते हुए कहा कि वह 55 सांसदों द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन की समीक्षा कर रहे हैं और सत्यापन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा चुके हैं।

- A first mail was sent to all MPs, and most of them responded positively, but some MPs are yet to respond. A reminder mail has been sent.

पहला मेल सभी सांसदों को भेजा गया, और अधिकांश सांसदों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन कुछ सांसदों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। एक अनुस्मारक मेल भी भेजा गया है।

- One MP's signature appeared twice**, and the MP denied signing twice, which could lead to serious consequences.

एक सांसद के हस्ताक्षर दो बार पाए गए, और उन्होंने दो बार हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं।



- If the number of valid signatures remains above 50, the process will move forward without any delay from Dhankhar's side.  
यदि मान्य हस्ताक्षरों की संख्या 50 से अधिक रहती है, तो धनखड़ की ओर से बिना किसी देरी के प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

## On the issue of the Delhi High Court judge दिल्ली हाई कोर्ट के जज के मुद्दे पर

- Mr. Dhankhar said he had pleaded with the **Leader of the House, J.P. Nadda**, that the House needed to know the status of Parliament's collective exercise on judicial accountability.  
श्री धनखड़ ने कहा कि उन्होंने सदन के नेता जे.पी. नड्डा से आग्रह किया कि संसद द्वारा न्यायिक जवाबदेही पर किए गए सामूहिक प्रयास की स्थिति के बारे में सदन को जानकारी होनी चाहिए।
- He reminded the House that the mechanism was passed with near unanimity, with no dissension and only one abstention in Rajya Sabha, with all political parties supporting the government's initiative.  
उन्होंने सदन को याद दिलाया कि इस तंत्र को लगभग सर्वसम्मति से पारित किया गया था, कोई असहमति नहीं थी, और राज्यसभा में केवल एक सांसद ने मतदान से परहेज किया था, साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की पहल का समर्थन किया था।
- He sought to find out the status of the initiative endorsed by 16 State Assemblies and signed by the Hon'ble President under **Article 111** of the Constitution.  
उन्होंने इस पहल की स्थिति जानने की इच्छा व्यक्त की, जिसे देश की 16 राज्य विधानसभाओं द्वारा समर्थन मिला था, और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- Dhankhar pointed out that if a politician, bureaucrat, or industrialist was in such a situation, they would immediately become a target.  
धनखड़ ने कहा कि यदि कोई राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति ऐसी स्थिति में होता, तो वह तुरंत निशाने पर आ जाता।
- He emphasized the need for a systemic response that is transparent, accountable, and effective.  
उन्होंने एक संगठित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया, जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो।
- He assured that he would consult the Leader of the House and the Leader of the Opposition to find a mechanism for a structured discussion during the session, subject to their agreement.  
उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से परामर्श करेंगे ताकि सत्र के दौरान एक संगठित चर्चा के लिए तंत्र तैयार किया जा सके, बशर्ते वे सहमत हों।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- **Dhankhar** stated that he would **discuss the matter with them** to ensure that the issue is addressed appropriately.

धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए।

PATRIOTIC IAS



# LS approves Demands for Grants of ₹50 lakh crore for various Ministries

**GS Paper II: Polity**

**The Hindu Bureau**

NEW DELHI

The Lok Sabha on Friday passed the Demands for Grants for various Ministries for 2025-26, approving expenditure of more than ₹50 lakh crore.

The House passed the Demands for Grants by applying the guillotine, which means the funds for the Ministries it [guillotine] is applied on are considered approved without a discussion.

The Lower House also passed the Appropriation Bill (3), 2025, moved by Finance Minister Nirmala Sitharaman.

## 'Fully committed'

Earlier in the day, the Lok Sabha debated the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for about four hours. Replying to the debate, Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan said the Narendra Modi government had spent ₹22.38 lakh crore on procurement of farm produce at minimum support price (MSP) and the procurement formula ensured that farmers earned 50% profits over their cost of production.

Asserting that a 5% growth in agriculture was a "miraculous achievement", Mr. Chouhan said, "Our government is fully committed to farmers' welfare... The BJP's vision is to serve farmers and we consider it akin to worshipping God".

Former Punjab Chief Minister and Congress MP, Charanjit Singh Channi also raised concern over the



Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, and others in the Lok Sabha during the Budget Session on Friday. ANI

government's position on slashing import duties on grains.

"America's President has openly stated they would impose reciprocal taxes and that India agreed to lower import duties on grains. If that is the case, what will happen to our country's agricultural produce?" Mr Channi asked.

## 'Betraying the farmers'

The Congress MP also deplored the police action on farmers on the Punjab border and accused the BJP of betraying the farmers by failing to fulfil its promise on MSP and suppressing the ongoing farmers' agitation.

"The government asked the protesting farmer leaders to withdraw their hunger strike, promising negotiations. But while they held meetings, the police were being prepared to dismantle the agitation. How can there be trust when

the farmers are called for talks but then forcibly removed at night?" Mr. Channi asked, referring to the action by the Punjab Police.

Hitting back, Mr. Chouhan asked, "Have we been friends with Aam Admi Party? You were walking arm-in-arm till the Lok Sabha election. You were together and you are accusing us".

Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav also condemned the government's handling of the protests, citing distress among farmers under the BJP-led government. "In the past 10 years, over a lakh farmers have committed suicide. Three farm laws were introduced and, despite the Opposition labelling them as 'black laws', the government refused to listen. Farmers endured extreme weather and staged month-long protests, during which 750

of them were martyred. Till today, not a single family of those farmers has received compensation," he said.

Drawing a parallel between colonial rule and the treatment of farmers, Congress MP Jai Prakash said the government using force to suppress protests was unacceptable.

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) MP T.M. Selvaganapathi said, "Even U.S. President Donald Trump has said India agreed to the U.S. conditions. Mexico, China and even European countries are resisting but we have become spineless. This will be a death knell for our farmers".

He also said the Centre was seeking to reverse India's long-standing policy of reducing dependence on the U.S. wheat imports. "Thanks to the Green Revolution led by our forefathers, especially M.S. Swaminathan and Dr. C. Subramaniam, India overcame its dependence on PL-480 wheat imports from the US. But now, the government is reversing that trend," he charged.

NCP (Sharadchandra Pawar) MP Amol Ramsing Kolhe pointed to the disparity between the U.S. and the Indian farmers, particularly in soyabean production. "After the change of power in the U.S., they are demanding that India open its agriculture market. This poses a major crisis for our farmers but the government has not given any clarity on this matter," Mr. Kolhe said.

**LS approves Demands for Grants of ₹50 lakh crore for**

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**

**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**

**Contact Number : 9971932488**

**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**



## various Ministries

लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए ₹50 लाख करोड़ के अनुदान मांगों को मंजूरी दी

The Lok Sabha on Friday passed the Demands for Grants for various Ministries for 2025-26, approving an expenditure of more than ₹50 lakh crore.

लोकसभा ने शुक्रवार को 2025-26 के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया, जिसमें ₹50 लाख करोड़ से अधिक के व्यय को मंजूरी दी गई।

- The Demands for Grants were passed using the **guillotine**, meaning that funds for these Ministries were considered approved without discussion.  
अनुदान मांगें गिलोटिन प्रक्रिया के माध्यम से पारित की गईं, जिसका अर्थ है कि इन मंत्रालयों के लिए धनराशि बिना किसी चर्चा के स्वीकृत मानी गई।
- The Lower House also passed the **Appropriation Bill (3), 2025**, moved by Finance Minister Nirmala Sitharaman.  
निचले सदन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान विधेयक (3), 2025 को भी पारित कर दिया।

## 'Fully committed' to Farmers' Welfare

किसानों के कल्याण के लिए 'पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध'

- The Lok Sabha debated the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for about four hours.  
लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लगभग चार घंटे तक बहस हुई।
- Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan stated that the Narendra Modi government had spent **₹22.38 lakh crore on farm produce procurement at Minimum Support Price (MSP)**.  
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कृषि उपज की खरीद पर ₹22.38 लाख करोड़ खर्च किए।
- He asserted that **5% growth in agriculture was a "miraculous achievement"** and that the BJP considers serving farmers akin to worshipping God.  
उन्होंने 5% कृषि वृद्धि को "अद्भुत उपलब्धि" बताया और कहा कि बीजेपी किसानों की सेवा को भगवान की पूजा के समान मानती है।

## Concerns over Import Duties and Farmer Protests

आयात शुल्क और किसान विरोध पर चिंताएं



- Congress MP Charanjit Singh Channi raised concerns over the **government's position on slashing import duties on grains**, questioning the impact on India's agricultural produce.  
कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अनाज पर आयात शुल्क कम करने की सरकारी नीति पर चिंता जताई और पूछा कि इससे भारत की कृषि उपज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- He criticized the **police action on farmers at the Punjab border**, accusing the BJP of **betraying farmers by failing to fulfill its promise on MSP**.  
उन्होंने पंजाब सीमा पर किसानों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और बीजेपी पर किसानों से धोखा करने और MSP पर किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।
- Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav condemned the government's **handling of farmer protests**, stating that **over one lakh farmers committed suicide in the past 10 years**.  
समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार के किसान आंदोलन के प्रति रुख की निंदा की, और कहा कि पिछले 10 वर्षों में एक लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।
- He reminded that **750 farmers were martyred during the year-long farm law protests, yet not a single family received compensation**.  
उन्होंने कहा कि साल भर चले कृषि कानून विरोध में 750 किसान शहीद हुए, लेकिन आज तक किसी भी किसान के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया।
- Congress MP Jai Prakash compared the **government's use of force on farmers to colonial rule**, calling it **unacceptable**.  
कांग्रेस सांसद जय प्रकाश ने सरकार द्वारा किसानों पर बल प्रयोग की तुलना औपनिवेशिक शासन से की और इसे अस्वीकार्य बताया।

## Concerns over US Influence on Indian Agriculture

### भारतीय कृषि पर अमेरिकी प्रभाव को लेकर चिंता

- DMK MP T.M. Selvaganapathi claimed that **even Mexico, China, and European nations resisted US agricultural demands, but India complied**.  
डीएमके सांसद टी.एम. सेल्वगणपति ने कहा कि मैक्सिको, चीन और यूरोपीय देश अमेरिकी कृषि मांगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत इसके आगे झुक गया।
- He alleged that the **government was reversing India's policy of reducing dependence on US wheat imports**, which was achieved through the Green Revolution.  
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका से गेहूं के आयात पर निर्भरता कम करने की नीति को उलट रही है, जो कि हरित क्रांति के माध्यम से हासिल किया गया था।
- NCP (Sharad Pawar) MP Amol Ramsing Kolhe pointed out the **disparity between US and Indian farmers**, particularly in **soybean production**.  
एनसीपी (शरद पवार गुट) के सांसद अमोल रामसिंग कोल्हे ने अमेरिकी और भारतीय किसानों के बीच असमानता को उजागर किया, विशेष रूप से सोयाबीन उत्पादन में।



- He stated that after the **change of power in the US**, they were **demanding that India open its agriculture market**, posing a major crisis for Indian farmers.  
उन्होंने कहा कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद, वे भारत से कृषि बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं, जिससे भारतीय किसानों के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

## Closure Motion in Parliamentary Proceedings

### संसदीय कार्यवाही में क्लोज़र मोशन

- A **Closure Motion** is a procedural device used in **parliamentary systems** to curtail debate on a particular matter, allowing the assembly to proceed directly to a vote.  
"क्लोज़र मोशन" एक संसदीय प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला प्रक्रियात्मक उपकरण है, जो किसी विषय पर बहस को सीमित करता है और सभा को सीधे मतदान के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है।
- This mechanism ensures **efficient use of legislative time** and prevents undue delay in decision-making.  
यह तंत्र विधायी समय के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है और निर्णय लेने में अनावश्यक देरी को रोकता है।

### Key Features of Closure Motion

#### क्लोज़र मोशन की प्रमुख विशेषताएँ

- **Purpose:** To expedite **parliamentary business** by ending prolonged debates.  
उद्देश्य: लंबी बहसों को समाप्त करके संसदीय कार्यवाही में तेजी लाना।
- **Initiation:** Moved by a **member of the house** when they believe a topic has been sufficiently discussed.  
प्रारंभ: जब सदन का कोई सदस्य मानता है कि किसी विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, तो वह इसे प्रस्तुत कर सकता है।
- **Approval:** Requires the consent of the **majority of members present**.  
मंजूरी: उपस्थित अधिकांश सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।

### Types of Closure Motions

#### क्लोज़र मोशन के प्रकार

- **Simple Closure**  
साधारण क्लोज़र
  - **Definition:** A motion stating that the matter "**having been sufficiently discussed be now put to vote.**"  
परिभाषा: एक प्रस्ताव जिसमें कहा जाता है कि "इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान में रखा जाए।"



- **Example:** During a **debate on a bill**, if discussions become repetitive, a member may move a simple closure to proceed to voting.  
**उदाहरण:** यदि किसी **विधेयक पर बहस** के दौरान चर्चा दोहरावपूर्ण हो जाए, तो कोई सदस्य साधारण क्लोजर प्रस्तुत कर सकता है ताकि मतदान हो सके।
- **Closure by Compartments**  
**कम्पार्टमेंट क्लोजर**
  - **Definition:** Dividing a **bill or resolution** into sections (compartments) for debate, after which each section is collectively put to vote.  
**परिभाषा:** किसी **विधेयक या प्रस्ताव** को अनुभागों (कम्पार्टमेंट) में विभाजित करके चर्चा की जाती है, और फिर प्रत्येक अनुभाग को सामूहिक रूप से मतदान में रखा जाता है।
  - **Example:** A **lengthy bill** is segmented into parts; each part is debated and then voted on as a whole.  
**उदाहरण:** एक **लंबे विधेयक** को भागों में विभाजित किया जाता है; प्रत्येक भाग पर चर्चा की जाती है और फिर उसे संपूर्ण रूप में मतदान में रखा जाता है।
- **Kangaroo Closure**  
**कंगारू क्लोजर**
  - **Definition:** Only **selected clauses** of a bill are debated and voted upon, while others are skipped and deemed approved.  
**परिभाषा:** किसी विधेयक की केवल **चयनित धाराओं** पर चर्चा और मतदान किया जाता है, जबकि अन्य को छोड़ दिया जाता है और स्वीकृत माना जाता है।
  - **Example:** In the **UK Parliament**, this method allows prioritization of **significant clauses** during debates, streamlining the legislative process.  
**उदाहरण:** यूके संसद में, यह विधि **महत्वपूर्ण धाराओं** को प्राथमिकता देने की अनुमति देती है, जिससे विधायी प्रक्रिया को सुगम बनाया जाता है।
- **Guillotine Closure**  
**गिलोटिन क्लोजर**
  - **Definition:** When **allotted debate time expires**, all pending clauses (discussed or not) are put to vote simultaneously.  
**परिभाषा:** जब **आवंटित बहस का समय समाप्त हो जाता है**, तो सभी शेष धाराओं (चर्चित या अचर्चित) को एक साथ मतदान में रखा जाता है।
  - **Example:** In the **Indian Parliament**, if debate time on a bill lapses, remaining clauses are collectively voted on without further discussion.  
**उदाहरण:** भारतीय संसद में, यदि किसी विधेयक पर बहस का समय समाप्त हो जाता है, तो शेष धाराओं पर बिना किसी और चर्चा के सामूहिक रूप से मतदान किया जाता है।

### Historical Context

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य



- **United Kingdom:** The concept of **closure motions** originated in the **UK Parliament** in the **late 19th century** to counteract **filibustering** and ensure **legislative efficiency**.
- **यूनाइटेड किंगडम:** क्लोजर मोशन की अवधारणा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूके संसद में शुरू हुई, ताकि **फिलीबस्टरिंग** को रोका जा सके और **विधायी कार्यकुशलता** सुनिश्चित की जा सके।

## Soybean in India

### भारत में सोयाबीन

- **Soybean** is a vital **oilseed crop** in India, contributing significantly to the country's **agricultural economy**.  
सोयाबीन भारत में एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, जो देश की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- The primary **soybean-producing states** are **Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, and Telangana**.  
प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना।
- This overview provides insights into each state's **contribution to soybean cultivation, recent production statistics, and challenges faced by farmers**.  
यह अवलोकन प्रत्येक राज्य के सोयाबीन उत्पादन में योगदान, हालिया उत्पादन आंकड़ों और किसानों द्वारा सामना की गई चुनौतियों पर जानकारी प्रदान करता है।

### Madhya Pradesh

#### मध्य प्रदेश

- **Madhya Pradesh**, often referred to as the "**Soybean State**," leads in **soybean cultivation**.  
मध्य प्रदेश, जिसे अक्सर "**सोयाबीन राज्य**" कहा जाता है, **सोयाबीन उत्पादन** में अग्रणी है।
- In the **2023-2024 season**, the **soybean area** increased by **1.7%**, rising from **5.975 million hectares** to **6.679 million hectares**.  
**2023-2024** सीजन में सोयाबीन का क्षेत्रफल **1.7%** बढ़कर **5.975** मिलियन हेक्टेयर से **6.679** मिलियन हेक्टेयर हो गया।
- This led to an increase in **production** from **6.332 million metric tonnes (2022-2023)** to **6.675 million metric tonnes (2023-2024)**.  
इससे उत्पादन **6.332** मिलियन मीट्रिक टन (**2022-2023**) से बढ़कर **6.675** मिलियन मीट्रिक टन (**2023-2024**) हो गया।
- **Challenges:** Farmers reported **changes in monsoon patterns, affecting planting and yields**.  
चुनौतियाँ: किसानों ने मानसून पैटर्न में बदलाव की सूचना दी, जिससे बुवाई और उपज प्रभावित हुई।



- There was a **40% increase in pest attacks** (including soybean pod borer and leaf spot diseases) in **2023** compared to the previous year.

\*\*2023 में, पिछले वर्ष की तुलना में कीट हमलों में **40%** की वृद्धि हुई, जिसमें सोयाबीन पॉड बोरर और लीफ स्पॉट रोग शामिल थे।

### Maharashtra

महाराष्ट्र

- **Maharashtra** is the **second-largest soybean-producing state**.
- In the **2023-2024 season**, the **soybean cultivation area** was **5.072 million hectares**, with a **production of 4.574 million tonnes**.

2023-2024 सीजन में सोयाबीन का क्षेत्रफल **5.072** मिलियन हेक्टेयर था, और उत्पादन **4.574** मिलियन टन हुआ।

### Rajasthan

राजस्थान

- **Rajasthan** is a significant contributor to **India's soybean production**.
- In the **2023-2024 season**, the **soybean cultivation area** was **1.144 million hectares**, with a **production of 1.069 million tonnes**.

2023-2024 सीजन में सोयाबीन का क्षेत्रफल **1.144** मिलियन हेक्टेयर था, और उत्पादन **1.069** मिलियन टन हुआ।

### Karnataka

कर्नाटक

- In the **2023-2024 season**, the **soybean cultivation area** in **Karnataka** was **0.411 million hectares**, producing **0.473 million tonnes**.

2023-2024 सीजन में कर्नाटक में सोयाबीन का क्षेत्रफल **0.411** मिलियन हेक्टेयर था, और उत्पादन **0.473** मिलियन टन हुआ।

### Telangana

तेलंगाना

- In the **2023-2024 season**, the **soybean cultivation area** in **Telangana** was **0.189 million hectares**, with a **production of 0.290 million tonnes**.

2023-2024 सीजन में तेलंगाना में सोयाबीन का क्षेत्रफल **0.189** मिलियन हेक्टेयर था, और उत्पादन **0.290** मिलियन टन हुआ।



## Do not publish NIRF ranking for 2025: HC to Education Ministry

**GS Paper II:  
Governance**

MADURAI

The Madurai Bench of the Madras High Court on Thursday restrained the Education Ministry and the National Board of Accreditation (NBA) from publishing the National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking for 2025.

The court was hearing a public interest litigation petition filed by C. Chellamuthu from Dindigul district of Tamil Nadu.

He claimed that the ranking was without any basis and was misleading students.

The NIRF was launched by the NBA on the direction of the Education Ministry for evaluating higher education institutions.

The NBA publishes the ranking every year. Institutions are evaluated on five broad categories – teaching, learning and resources; research and professional practice; graduation outcomes; outreach and inclusivity; and perception – the petition said.

The NBA directs institutions to upload data on student and staff strength, staff salaries, graduation index, placement details, funds received for re-

**NIRF ranking is done based on the data given by institutions without verification, says petitioner**

search, and other parameters on its web portal. Based on this data, the ranking is awarded without further verification or auditing, the petitioner said.

Comparing it with the National Assessment and Accreditation Council's (NAAC) Annual Quality Assurance Report (AQAR), the petitioner said the NAAC-AQAR documents were audited and checked by expert committees sent by the NAAC to the institutions.

The petitioner sought a direction to the NBA to publish the NIRF ranking after comparing and verifying the data submitted by the institutions with the data in the government records and to disclose the calculation method.

A Division Bench of Justices J. Nisha Banu and S. Srimathy restrained the authorities from publishing the ranking for 2025. The court sought a counter affidavit and posted the matter to April 24.

## Do not publish NIRF ranking for 2025: HC to Education Ministry

2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग प्रकाशित न

करें: उच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया

The Madurai Bench of the Madras High Court on Thursday restrained the Education Ministry and the **National Board of Accreditation (NBA)** from publishing the **National Institutional Ranking Framework (NIRF)** ranking for 2025.

मदुरै बेंच, मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) को 2025 की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग प्रकाशित करने से रोका।

• The court was hearing a **public interest litigation (PIL)** petition filed by **C. Chellamuthu** from Dindigul district, Tamil Nadu.

अदालत ने तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के सी. चेल्लमुथु द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई की।

• The petitioner claimed that the **ranking system lacked a proper basis and misled students.**

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि रैंकिंग प्रणाली का कोई ठोस आधार नहीं है और यह छात्रों को गुमराह करती है।



## NIRF and Its Evaluation Criteria

### एनआईआरएफ और इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया

- NIRF was launched by the NBA under the direction of the Education Ministry to evaluate higher education institutions.  
एनआईआरएफ को शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर एनबीए द्वारा शुरू किया गया था ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन किया जा सके।
- The NBA publishes the ranking every year, evaluating institutions based on five categories:  
एनबीए हर साल रैंकिंग प्रकाशित करता है, और संस्थानों का मूल्यांकन पांच श्रेणियों के आधार पर किया जाता है:
  - Teaching, learning, and resources (शिक्षण, अधिगम और संसाधन)
  - Research and professional practice (अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास)
  - Graduation outcomes (स्नातक परिणाम)
  - Outreach and inclusivity (पहुँच और समावेशिता)
  - Perception (धारणा)
- Institutions are required to upload data on student and staff strength, staff salaries, graduation index, placement details, research funding, etc., on the NBA web portal.  
संस्थानों को एनबीए वेब पोर्टल पर छात्रों और कर्मचारियों की संख्या, वेतन, स्नातक सूचकांक, प्लेसमेंट विवरण, अनुसंधान निधि आदि का डेटा अपलोड करना आवश्यक होता है।
- The petitioner argued that the ranking is awarded solely based on this data without verification or auditing.  
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह रैंकिंग केवल अपलोड किए गए डेटा के आधार पर दी जाती है, बिना किसी सत्यापन या ऑडिट के।

## Comparison with NAAC Accreditation

### एनएएसी प्रत्यायन की तुलना

- The petitioner compared NIRF ranking with the National Assessment and Accreditation Council's (NAAC) Annual Quality Assurance Report (AQAR).  
याचिकाकर्ता ने एनआईआरएफ रैंकिंग की तुलना राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (AQAR) से की।
- He stated that NAAC-AQAR documents are audited and verified by expert committees, unlike NIRF rankings, which rely solely on self-reported data.  
उन्होंने कहा कि एनएएसी-एक्यूएआर दस्तावेजों का विशेषज्ञ समितियों द्वारा ऑडिट और सत्यापन किया जाता है, जबकि एनआईआरएफ रैंकिंग केवल स्वयं प्रस्तुत डेटा पर निर्भर होती है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The petitioner sought a directive for the **NBA to verify institutional data with government records** before publishing the **NIRF rankings** and to **disclose the calculation method**.

याचिकाकर्ता ने मांग की कि एनबीए को संस्थानों द्वारा प्रस्तुत डेटा को सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करके सत्यापित करना चाहिए और गणना पद्धति का खुलासा करना चाहिए।

## Court's Order and Next Hearing

### अदालत का आदेश और अगली सुनवाई

- A Division Bench of Justices J. Nisha Banu and S. Srimathy restrained the Education Ministry and NBA from publishing the NIRF ranking for 2025.  
न्यायमूर्ति जे. निशा बानू और एस. श्रीमथी की खंडपीठ ने शिक्षा मंत्रालय और एनबीए को 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग प्रकाशित करने से रोका।
- The court sought a counter affidavit and scheduled the next hearing for April 24.  
अदालत ने एक प्रति-शपथपत्र मांगा और अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की।



## Navigating differences

India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration

**GS Paper II: India-New Zealand**

**A**t the 10th edition of the Raisina Dialogue, visiting New Zealand Prime Minister Christopher Luxon – the conference's chief guest – outlined three major geopolitical shifts shaping the world: the replacement of rules with power, the rise of security over economic considerations, and a move from trade efficiency to protectionism and resilient supply chains among trusted partners. In this context, Mr. Luxon suggested that India and New Zealand, despite their size disparity, could be ideal partners. Both democracies share an interest in ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific. While New Zealand is not part of the Quad (Australia, India, Japan, the United States) and does not seek membership, Mr. Luxon noted the ongoing dialogue among New Zealand, Australia, Japan and South Korea on regional issues. Following talks with Prime Minister Narendra Modi, the two countries signed a defence Memorandum of Understanding (MoU) to enhance military cooperation, staff college exchanges, and naval port calls. They also agreed to restart talks on a free trade agreement, aiming to expand their modest bilateral trade, currently under \$2 billion. However, challenges remain, particularly around market access for dairy and agricultural products, which contributed to India's decision to exit the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), of which New Zealand is a member. In contrast, New Zealand's trade with China stands at approximately \$24 billion, despite broader strategic concerns. Connectivity between the two nations received a boost, with Air India and Air New Zealand signing a codeshare agreement that may also lead to the first direct flights between the countries by the end of 2028.

Despite the positive tone, Mr. Modi voiced concern over “anti-India activities by certain illegal elements” in New Zealand, referencing protests and a Khalistan referendum held by the ‘Sikhs for Justice’ group in Auckland last November. Although previously discussed between the Foreign Ministers, New Zealand police had ruled the protests to be lawful. In response, Mr. Luxon reaffirmed New Zealand's commitment to free expression and noted the importance of not importing foreign political conflicts into its diverse immigrant communities. While such concerns are legitimate, raising them publicly risks deepening divisions within the 3,00,000-strong Indian diaspora and overshadowing growing strategic and economic ties. These sensitive issues may be better handled through diplomatic engagement in private. Ultimately, India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration – particularly in trade, defence, and regional stability – as two democracies that “book-end” the Indo-Pacific.

के साथ क्षेत्रीय चर्चाओं में भाग लेता है।

- After talks with Prime Minister Narendra Modi, India and New Zealand signed a defence Memorandum of Understanding (MoU) to enhance:

## Navigating differences

विविधताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना

**At the 10th edition of the Raisina Dialogue, New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, the chief guest, outlined three major geopolitical shifts shaping the world:**

रायसीना संवाद के 10वें संस्करण में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, जो मुख्य अतिथि थे, ने दुनिया को आकार देने वाले तीन प्रमुख भू-राजनीतिक परिवर्तन बताए:

- Replacement of rules with power (नियमों का शक्ति से प्रतिस्थापन)
- Rise of security over economic considerations (आर्थिक चिंताओं की तुलना में सुरक्षा का बढ़ता महत्व)
- Shift from trade efficiency to protectionism and resilient supply chains (व्यापार दक्षता से संरक्षणवाद और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर बदलाव)
- Mr. Luxon suggested that **India and New Zealand, despite size disparities, could be ideal partners, as both democracies aim to ensure freedom of navigation in the Indo-Pacific.**

श्री लक्सन ने सुझाव दिया कि भारत और न्यूजीलैंड, आकार में अंतर के बावजूद, आदर्श साझेदार हो सकते हैं, क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक देश इंडो-पैसिफिक में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहते हैं।

## India-New Zealand Cooperation

भारत-न्यूजीलैंड सहयोग

- **New Zealand is not part of the Quad (Australia, India, Japan, US), nor does it seek membership. However, it engages in regional discussions with Australia, Japan, and South Korea.**

न्यूजीलैंड क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका) का हिस्सा नहीं है, और न ही वह सदस्यता चाहता है। हालांकि, यह ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के बाद, भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल हैं:

- Military cooperation (सैन्य सहयोग)
  - Staff college exchanges (सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों का आदान-प्रदान)
  - Naval port calls (नौसेना बंदरगाह यात्राएं)
- Both countries also agreed to restart free trade agreement (FTA) talks, aiming to expand bilateral trade, currently under \$2 billion.
- दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि वर्तमान में \$2 बिलियन से कम के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जा सके।

## Challenges in Trade Relations

### व्यापार संबंधों में चुनौतियां

- Market access issues for dairy and agricultural products were a major reason for India's exit from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), of which New Zealand is a member.  
डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की समस्याएं, भारत के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से बाहर निकलने का एक प्रमुख कारण थीं, जबकि न्यूजीलैंड इसका सदस्य है।
- In contrast, New Zealand's trade with China is valued at \$24 billion, despite broader strategic concerns.  
इसके विपरीत, न्यूजीलैंड और चीन के बीच व्यापार \$24 बिलियन का है, हालांकि रणनीतिक चिंताएं बनी हुई हैं।
- Connectivity between India and New Zealand was boosted as Air India and Air New Zealand signed a codeshare agreement, possibly leading to direct flights by 2028.  
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला, क्योंकि एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड ने एक कोडशेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे 2028 तक सीधी उड़ानों की संभावना बनी।

## Concerns over Anti-India Activities

### भारत-विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता

- Prime Minister Modi raised concerns about anti-India activities in New Zealand, referring to protests and a Khalistan referendum by Sikhs for Justice in Auckland (November 2023).  
प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड में भारत-विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई, विशेष रूप से ऑकलैंड (नवंबर 2023) में 'सिख्स फॉर जस्टिस' समूह द्वारा आयोजित विरोध और खालिस्तान जनमत संग्रह का उल्लेख किया।



- **New Zealand's Foreign Ministers** had previously discussed this, and **New Zealand police** ruled the protests as lawful.  
न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रियों ने पहले इस पर चर्चा की थी, और न्यूजीलैंड पुलिस ने इन विरोध प्रदर्शनों को कानूनी करार दिया था।
- **Prime Minister Luxon** reaffirmed **New Zealand's commitment to free expression**, while stating that **foreign political conflicts should not affect diverse immigrant communities**.  
प्रधानमंत्री लक्सन ने न्यूजीलैंड की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई, और कहा कि विदेशी राजनीतिक विवादों को प्रवासी समुदायों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
- Raising such issues **publicly** may **deepen divisions within the 3,00,000-strong Indian diaspora** and overshadow strategic and economic ties.  
ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाने से 3,00,000 की भारतीय प्रवासी आबादी में मतभेद बढ़ सकते हैं और रणनीतिक व आर्थिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
- Such sensitive issues **may be better handled through private diplomatic engagement** rather than public statements.  
ऐसे संवेदनशील मुद्दों को सार्वजनिक बयानों के बजाय कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाना बेहतर हो सकता है।

## The Way Forward

### आगे का रास्ता

- **India and New Zealand stand to benefit from greater collaboration in trade, defence, and regional stability.**
- **As two democracies that book-end the Indo-Pacific, both nations can work towards a stronger partnership despite existing challenges.**  
इंडो-पैसिफिक के दो छोरों पर स्थित लोकतंत्र के रूप में, दोनों राष्ट्र मौजूदा चुनौतियों के बावजूद मजबूत साझेदारी की दिशा में काम कर सकते हैं।



## India's marginalised Parliament in budgetary affairs

### GS Paper II: Parliament

**T**he Budget is more than just a financial statement, as it reflects a nation's priorities, economic vision and governance philosophy. Across democracies, parliaments exercise the power of the purse, which is critical in shaping national budgets, ensuring fiscal discipline, and promoting transparency. However, in India, parliamentary influence over the Budget remains minimal. The executive-driven process side lines legislators, leaving them with little opportunity to effectively shape or scrutinise financial policies. Parliament must evolve from being a mere approver of the government's financial proposals to actively shaping economic policy. This requires critical institutional reforms, including pre-Budget discussions and establishing a Parliamentary Budget Office (PBO).

#### The Budget, a pillar of democracy

Budgeting is a fundamental democratic exercise that allocates public resources and defines the government's social and economic priorities. Historically, the power of the purse has been hard-won, with legislatures across the world asserting their right to oversee public finance. From the British Parliament's financial control in the 19th century to the fiscal policies of modern democracies, legislative scrutiny has been essential in preventing executive overreach.

Globally, the degree of legislative influence over budgets varies. Some parliaments actively draft and modify budget proposals, while others act as rubber stamps. Certain legislatures hold in-depth committee discussions on budgetary allocations, whereas others rely on centralised finance committees. However, one common thread remains – Budget transparency and parliamentary engagement correlate with better social outcomes and economic stability.

Parliament's role in Budget formulation and scrutiny in India is mainly ceremonial. The Finance Ministry single-handedly crafts the Budget, keeping even Cabinet Ministers uninformed until its presentation in the Lok Sabha. Unlike other legislative Bills, the Budget proposal is not subjected to thorough cabinet discussions before being introduced in Parliament. The executive monopoly over financial planning results in fragmented debates and limited oversight, weakening the core tenets of representative democracy.



**Vinod Bhanu**

is the Executive Director of the Centre for Legislative Research and Advocacy (CLRA), New Delhi

Moreover, the Rajya Sabha, despite its democratic credentials, has no substantive role in Budget discussions. Ironically, while India permits a Finance Minister to be a Rajya Sabha member, they lack the ability to vote on their (own) Budget proposals in the Lok Sabha. This absence of budgetary bicameralism contrasts sharply with the British House of Lords, which wields some influence over financial legislation despite being an unelected body.

The decline of parliamentary authority over budgetary matters is evident in the poor quality and brevity of debates and the ineffective scrutiny by subject committees. Parliamentarians lack the power to amend or significantly influence budget proposals, effectively reducing their role to passive approval. This status quo is neither democratic nor conducive to accountability.

#### Pre-Budget discussions

Two key reforms must be implemented for Parliament to reclaim its rightful role in Budget-making: introducing pre-budget discussions and creating a Parliamentary Budget Office.

Parliament should institutionalise pre-Budget discussions during the monsoon session to ensure meaningful engagement in the Budget process. A dedicated five to seven-day discussion period would allow legislators to assess the nation's fiscal health, outline Budget priorities, and present a broad economic framework for the government's consideration. Such discussions would also encourage better coordination among subject committees, enhancing their ability to provide informed input.

Pre-Budget debates would democratise the Budget-making process, allowing elected representatives to voice public concerns, suggest equitable resource allocation, and engage in policy deliberations. More importantly, they would facilitate greater public involvement, fostering transparency and trust in financial governance.

Scepticism about active legislative involvement in budgeting often stems from concerns over fiscal discipline. Some economists argue that empowering legislatures may lead to populist spending and weakened financial prudence. However, placing unchecked faith in the executive to act in the public interest is naive.

Regardless of ideology, no government has ever voluntarily ensured economic justice without oversight. A balanced approach, where the executive retains financial discretion but remains answerable to Parliament, is the hallmark of a healthy democracy.

A crucial aspect of Budget reform is in strengthening Parliament's analytical and research capabilities. India lacks an institutional mechanism that provides legislators with independent and non-partisan Budget analysis. Establishing a Parliamentary Budget Office (PBO) would bridge this gap as there would be data-driven insights and expert economic forecasts. Modelled on institutions such as the U.S. Congressional Budget Office and similar bodies in Australia, Canada and the United Kingdom, a well-structured PBO in India would play a vital role in analysing government spending, revenue projections, and fiscal policies. It would conduct independent economic forecasts, assess the fiscal impact of proposed policies, and evaluate medium-term and long-term budgetary trends.

Additionally, the PBO would offer policy briefs to parliamentarians, enhancing informed decision-making. Rather than encroaching upon the executive's role, it would complement it by ensuring legislative scrutiny is backed by objective research. Such an institution would significantly enhance Parliament's capacity to hold the government accountable and foster evidence-based policy discussions.

#### Reclaiming parliamentary authority

The current budgetary process diminishes the role of elected representatives, undermining democratic accountability. By integrating pre-Budget discussions and establishing a PBO, Parliament can transition from being a passive recipient of financial proposals to an active budget-influencing institution.

These reforms are procedural adjustments and fundamental steps towards strengthening representative democracy. They would ensure public finance decisions reflect collective deliberation rather than executive fiat. A robust parliamentary engagement in budgeting would ultimately lead to more equitable economic policies, greater transparency, and a financial governance framework that genuinely serves the people's interests.

The existing budgetary process diminishes the role of elected representatives, undermining democratic accountability

## India's marginalised Parliament in budgetary affairs

### भारत में बजट मामलों में संसद की सीमित भूमिका

The Budget is more than just a financial statement; it reflects a nation's priorities, economic vision, and governance philosophy.

बजट केवल एक वित्तीय विवरण नहीं है; यह एक देश की प्राथमिकताओं, आर्थिक दृष्टि और शासन दर्शन को दर्शाता है।

- Across democracies, parliaments hold the power of the purse, shaping budgets, ensuring fiscal discipline, and promoting transparency.

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, संसद वित्तीय नियंत्रण रखती है, जिससे बजट तैयार किया जाता है, राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित होता है, और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।



- However, in India, the Parliament's influence over the Budget is minimal, as the executive-driven process sidelines legislators.  
हालांकि, भारत में संसद का बजट पर प्रभाव न्यूनतम है, क्योंकि कार्यपालिका-प्रधान प्रक्रिया विधायकों को किनारे कर देती है।
- Parliament must evolve from being a mere approver of financial proposals to actively shaping economic policy.  
संसद को केवल सरकारी वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली संस्था से आगे बढ़कर आर्थिक नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
- This requires institutional reforms, such as pre-Budget discussions and the establishment of a Parliamentary Budget Office (PBO).  
इसके लिए संस्थागत सुधारों की जरूरत है, जैसे बजट पूर्व चर्चा और संसदीय बजट कार्यालय (PBO) की स्थापना।

## The Budget: A pillar of democracy

### बजट: लोकतंत्र का एक स्तंभ

- Budgeting is a fundamental democratic exercise that allocates public resources and defines government priorities.  
बजट प्रक्रिया एक मौलिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन करती है और सरकारी प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है।
- Throughout history, legislatures worldwide have fought for their right to oversee public finance, ensuring executive accountability.  
इतिहास में, दुनिया भर की विधानसभाओं ने सार्वजनिक वित्त की निगरानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया है, ताकि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
- Globally, the extent of parliamentary influence on budgets varies:  
वैश्विक स्तर पर, संसद का बजट पर प्रभाव अलग-अलग होता है:
  - Some actively draft and modify budgets. (कुछ संसद बजट को तैयार और संशोधित करती हैं)
  - Some only approve government proposals. (कुछ संसद केवल सरकारी प्रस्तावों को मंजूरी देती हैं)
  - Some hold in-depth committee discussions. (कुछ विस्तृत समिति चर्चाओं का आयोजन करती हैं)
- One common theme across countries: Greater Budget transparency and parliamentary involvement lead to better social and economic outcomes.  
एक समान प्रवृत्ति देखी गई है: बजट में अधिक पारदर्शिता और संसदीय भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक परिणाम बेहतर होते हैं।



## Parliament's limited role in Budget formulation

### बजट निर्माण में संसद की सीमित भूमिका

- In India, Parliament's role in Budget formulation and scrutiny is mostly ceremonial. भारत में, संसद की भूमिका बजट निर्माण और जांच में मुख्य रूप से औपचारिक होती है।
- The Finance Ministry alone prepares the Budget, keeping even Cabinet Ministers uninformed until its presentation in Lok Sabha. वित्त मंत्रालय अकेले बजट तैयार करता है, और इसे कैबिनेट मंत्रियों तक को जानकारी नहीं होती, जब तक कि इसे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता।
- Unlike other legislative bills, the Budget proposal does not undergo thorough Cabinet discussions before being presented in Parliament. अन्य विधायी बिलों के विपरीत, बजट प्रस्ताव संसद में पेश होने से पहले कैबिनेट में व्यापक चर्चा से नहीं गुजरता।
- The executive's monopoly over financial planning leads to fragmented debates and weak oversight, weakening representative democracy. कार्यपालिका का वित्तीय योजना पर एकाधिकार के कारण बिखरी हुई बहस और कमजोर निगरानी होती है, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र कमजोर पड़ता है।

## The Rajya Sabha's minimal role in Budget discussions

### राज्यसभा की बजट चर्चा में न्यूनतम भूमिका

- Despite being a democratic institution, Rajya Sabha has no substantive role in Budget discussions. लोकतांत्रिक संस्था होने के बावजूद, राज्यसभा की बजट चर्चा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती।
- Ironically, India allows a Finance Minister to be a Rajya Sabha member, but they cannot vote on their own Budget proposals in Lok Sabha. विडंबना यह है कि भारत में वित्त मंत्री राज्यसभा से हो सकते हैं, लेकिन वे लोकसभा में अपने ही बजट प्रस्तावों पर मतदान नहीं कर सकते।
- This lack of bicameral budgetary oversight is in contrast to the British House of Lords, which has some influence over financial legislation. यह द्विसदनीय बजटीय निगरानी की कमी ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अलग है, जिसे वित्तीय कानून पर कुछ प्रभाव प्राप्त है।

## The decline of parliamentary authority over budgets

### बजट पर संसदीय अधिकार की गिरावट

- Weak parliamentary debates and ineffective committee scrutiny show a decline in legislative authority over budgets.



कमजोर संसदीय बहस और अप्रभावी समिति जांच से बजट पर विधायी अधिकार की गिरावट स्पष्ट होती है।

- Parliamentarians **lack the power to amend or significantly influence Budget proposals**, reducing their role to **passive approval**.  
सांसदों के पास बजट प्रस्तावों में संशोधन करने या महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति नहीं होती, जिससे उनकी भूमिका सिर्फ अनुमोदन तक सीमित रह जाती है।
- This **status quo is undemocratic and weakens accountability**.  
यह स्थिति अलोकतांत्रिक है और जवाबदेही को कमजोर करती है।

## The Need for Reform

### सुधार की आवश्यकता

- **Institutional changes** such as:  
संस्थागत बदलावों की जरूरत है, जैसे:
  - **Pre-Budget discussions in Parliament**. (संसद में बजट पूर्व चर्चा)
  - **Establishment of a Parliamentary Budget Office (PBO)**. (संसदीय बजट कार्यालय (PBO) की स्थापना)
  - **Greater involvement of committees in budget scrutiny**. (बजट की निगरानी में समितियों की अधिक भागीदारी)
- **Strengthening Parliament's role in budget-making will ensure fiscal discipline, transparency, and accountability**.  
संसद की बजट निर्माण में भूमिका को मजबूत करने से राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

## Pre-Budget discussions

### बजट पूर्व चर्चा

- Two **key reforms** are essential for Parliament to **reclaim its role in Budget-making**:
  - **Introducing pre-Budget discussions**.
  - **Creating a Parliamentary Budget Office (PBO)**.  
संसद को बजट निर्माण में अपनी भूमिका पुनः प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख सुधार आवश्यक हैं:
    - बजट पूर्व चर्चा की शुरुआत।
    - संसदीय बजट कार्यालय (PBO) की स्थापना।
- **Parliament should institutionalise pre-Budget discussions during the monsoon session**, allowing legislators to **assess fiscal health and outline Budget priorities**.  
संसद को मानसून सत्र के दौरान बजट पूर्व चर्चा को संस्थागत बनाना चाहिए, जिससे सांसद राजकोषीय स्थिति का आकलन कर सकें और बजट प्राथमिकताओं को रेखांकित कर सकें।



- A dedicated five to seven-day discussion period would enable:
  - Meaningful engagement in the Budget process.
  - Better coordination among subject committees.  
एक समर्पित पांच से सात दिन की चर्चा अवधि से:
    - बजट प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी हो सकेगी।
    - विषयगत समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
- Pre-Budget debates would help in:
  - Democratising the Budget process.
  - Allowing elected representatives to voice public concerns.
  - Ensuring equitable resource allocation.  
बजट पूर्व बहस से मदद मिलेगी:
    - बजट प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने में।
    - منتخب प्रतिनिधियों को जनहित की चिंताओं को उठाने का अवसर देने में।
    - संसाधनों के समानुपातिक आवंटन को सुनिश्चित करने में।

## Addressing concerns over fiscal discipline

### राजकोषीय अनुशासन को लेकर चिंताओं का समाधान

- Some economists argue that legislative involvement in budgeting could lead to populist spending and weak financial prudence.  
कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि बजट में विधायी भागीदारी से लोकलुभावन खर्च और कमजोर वित्तीय अनुशासन हो सकता है।
- However, blindly trusting the executive to act in public interest is unrealistic. No government has ever ensured economic justice without oversight.  
हालांकि, कार्यपालिका पर पूरी तरह निर्भर रहना अव्यावहारिक है। किसी भी सरकार ने बिना निगरानी के आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया।
- A balanced approach is needed, where:
  - The executive retains financial discretion.
  - The Parliament ensures accountability.  
एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जहां:
    - कार्यपालिका वित्तीय विवेक बनाए रखे।
    - संसद जवाबदेही सुनिश्चित करे।

## Establishing a Parliamentary Budget Office (PBO)

### संसदीय बजट कार्यालय (PBO) की स्थापना

- India lacks an independent, non-partisan Budget analysis institution. A PBO would bridge this gap by providing:



- Data-driven insights.
- Expert economic forecasts.  
भारत में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष बजट विश्लेषण संस्था की कमी है। PBO इस कमी को पूरा करेगा, जिससे:
  - डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि उपलब्ध होगी।
  - विशेषज्ञ आर्थिक पूर्वानुमान मिलेंगे।
- Modeled on institutions like:
  - U.S. Congressional Budget Office.
  - Budget offices in Australia, Canada, and the U.K.  
यह संस्थान यू.एस. कांग्रेसनल बजट ऑफिस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यू.के. के बजट कार्यालयों पर आधारित होगा।
- A PBO would analyze:
  - Government spending and revenue projections.
  - Fiscal policies and medium-term trends.
  - Economic impact of policy proposals.  
PBO का कार्य होगा:
    - सरकारी खर्च और राजस्व अनुमानों का विश्लेषण।
    - राजकोषीय नीतियों और मध्यम अवधि के रुझानों का आकलन।
    - नीतिगत प्रस्तावों के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन।
- Additionally, the PBO would provide policy briefs to parliamentarians, ensuring informed decision-making.  
इसके अलावा, PBO सांसदों को नीति संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रदान करेगा, जिससे सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- This would not interfere with the executive but complement it by enhancing legislative oversight.  
यह कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि संसदीय निगरानी को मजबूत करने में सहायक होगा।

## Reclaiming parliamentary authority

### संसद का बजट पर अधिकार पुनः स्थापित करना

- The current budgetary process undermines democratic accountability, reducing Parliament's role to passive approval.  
वर्तमान बजट प्रक्रिया लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है, जिससे संसद की भूमिका केवल अनुमोदन तक सीमित हो जाती है।
- By integrating pre-Budget discussions and establishing a PBO, Parliament can transition from a passive observer to an active Budget influencer.



बजट पूर्व चर्चाओं को शामिल कर और PBO की स्थापना कर, संसद एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक से सक्रिय बजट प्रभावकारक बन सकती है।

These reforms would:

- Ensure public finance decisions reflect collective deliberation.
- Enhance economic transparency and governance.
- Lead to more equitable policies serving public interests.

ये सुधार:

- सार्वजनिक वित्तीय निर्णयों को सामूहिक विचार-विमर्श का प्रतिबिंब बनाएंगे।
- आर्थिक पारदर्शिता और प्रशासन को बेहतर बनाएंगे।
- जनहित में अधिक समानुपातिक नीतियों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।

## Charting a route for IORA under India's chairship

GS Paper II: Indian Ocean

The Indian Ocean Rim Association (IORA) is an apex regional organisation that promotes open regionalism between the countries of Asia, Africa and Australia, connected via Indian Ocean waters. As the Indian leadership prepares to step up to chair IORA from November 2025 – it is now Vice-Chair – it can bring impetus to increased resilience in its governance structure. As IORA chair for the next two years, India will have three priorities: creating funding opportunities to enlarge IORA's budget; integrating technology for data management and policy analysis, and creating maritime-ready courses with academic and research institutions using collaborations.

### The Indian Ocean Region and IORA

Geostrategically, the Indian Ocean Region (IOR) is a subset of the Indo-Pacific, yet unique. The Indian Ocean, home to two-thirds of humanity, has a rich and diverse marine life. It also transports 75% of global trade and 50% of daily oil consumption. It produces \$1 trillion in goods and services, and its intra-IORA trade was \$800 billion in 2023. However, this region is also marred by poor development, troubled political systems, climate change-induced disasters, and environmental degradation. It also faces security challenges such as piracy, terrorism, and human and drug trafficking. These supranational issues compel the regional countries to cooperate and find workable solutions.

Therefore, as one of the oldest regional inter-governmental organisations, IORA has been working to further cooperation among its members by facilitating dialogue on cultural and academic exchanges and crucial issues such as disaster risk management. While the United



Pooja Bhatt

is an Associate Professor at O.P. Jindal Global University, Sonapat and teaches maritime geopolitics and regional institutions

New Delhi must strengthen the foundation for meaningful and ground-level governance

States, China and the European Union are IORA's dialogue partners, it is mainly driven by only middle and small powers and, therefore, requires a tour de force to become more relevant.

### Issues faced by IORA

The Indian Ocean region is relatively free of the great power competition yet has its own set of challenges, including funding. IORA's annual budget is member-dependent. Barring Singapore, the United Arab Emirates (UAE) and France, the member-states are developing Asian and African economies. The budget is indicated to be just a few million. Incidentally, the Indian Ocean Commission, which has only five IO countries, has a \$1.3 billion budget for the 2020-25 time frame. Thus, the funds generated fall short of achieving IORA's growing areas of engagement such as maritime safety and security, fisheries management, disaster risk management, technology and innovation, and the blue economy.

Notably, each of these pillars is resource-intensive and requires constant engagement. One way to generate more funds would be to include private players as consultative partners as they are some of the biggest players in the maritime domain. From shipping companies to marine-related industries such as oil and gas, and marine tourism, these industries are relevant to the blue economy. These industries can be involved in maritime policy-making and also contribute to the IORA fund. The IORA has a small Secretariat with limited staff based in Mauritius. Since government-based structures and institutions have limited bandwidth for data processing, technology can be a big help in improving

governance. Accounting for data is laborious with a large margin of error, and quick and efficient policy analysis would be made easier with digitised record keeping.

### Other suggestions for India

India's Security and Growth for All (SAGAR) vision complements IORA's objectives and must leverage its excellent relations with IORA member-states to develop workable solutions. IORA members, such as Australia, have made significant contributions to research in marine science and technology. France and Singapore, have their strength in marine-related technologies, and the UAE and Oman can contribute through investments in sectors where IORA seeks help. Traditional knowledge that exists in coastal and small island nations (Sri Lanka, Seychelles, Mauritius) should be mainstreamed for developing sustainable methods of marine governance. To further productive outcomes, IORA needs sustained and improved collaborative avenues.

Lastly, as marine and maritime-related employment opportunities will only multiply, industrial leaders should collaborate with educational and research institutions to provide problem statements and seek solutions, and to create newer, industry-related courses. Marine accounting is an interdisciplinary course that could help create a base for a blue economy. With the available talent in the region, scholars and practitioners are most likely to work out solutions.

IORA holds immense promise for regional prosperity and India must use its leadership to overcome the existing issues at the institutional level.


Charting a route for IORA under India's chairship  
भारत की अध्यक्षता में आईओआरए के लिए मार्ग तैयार करना

The Indian Ocean Rim Association (IORA) is a regional organisation that promotes open regionalism among Asia, Africa, and Australia,



connected by the Indian Ocean.

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देशों के बीच खुले क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, जो हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं।



- India is currently the Vice-Chair of IORA and will take over as Chair from November 2025.

भारत वर्तमान में IORA का उपाध्यक्ष है और नवंबर 2025 से अध्यक्ष पद संभालेगा।

- As IORA Chair for two years, India will focus on three priorities:
  - Creating funding opportunities to expand IORA's budget.
  - Integrating technology for better data management and policy analysis.
  - Developing maritime-ready courses in collaboration with academic and research institutions.

आईओआरए के दो वर्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल में भारत तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान देगा:

- आईओआरए के बजट को बढ़ाने के लिए वित्त पोषण के अवसर तैयार करना।
- बेहतर डेटा प्रबंधन और नीति विश्लेषण के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।
- शैक्षणिक और शोध संस्थानों के सहयोग से समुद्री-उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करना।



## The Indian Ocean Region and IORA

### हिंद महासागर क्षेत्र और आईओआरए

- Geostrategically, the Indian Ocean Region (IOR) is a subset of the Indo-Pacific, but it has a unique identity.  
भू-राजनीतिक दृष्टि से, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) इंडो-पैसिफिक का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी एक अलग पहचान है।
- The Indian Ocean:
  - Is home to two-thirds of the global population.
  - Facilitates 75% of global trade and 50% of daily oil consumption.
  - Produces \$1 trillion in goods and services.
  - Had an intra-IOA trade of \$800 billion in 2023.हिंद महासागर:
  - दुनिया की दो-तिहाई आबादी का घर है।
  - वैश्विक व्यापार का 75% और दैनिक तेल खपत का 50% परिवहन करता है।
  - \$1 ट्रिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है।
  - 2023 में IOA के भीतर \$800 बिलियन का व्यापार हुआ।
- The region also faces serious challenges such as:
  - Poor development and unstable political systems.
  - Climate change-induced disasters and environmental degradation.
  - Security threats including piracy, terrorism, and human and drug trafficking.यह क्षेत्र गंभीर चुनौतियों का भी सामना करता है, जैसे:
  - कमजोर विकास और अस्थिर राजनीतिक प्रणाली।
  - जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाएं और पर्यावरणीय क्षरण।
  - सुरक्षा खतरे जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी।
- These cross-border issues require regional cooperation to find workable solutions.  
ये सीमापार मुद्दे क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता को दर्शाते हैं, ताकि व्यवहारिक समाधान खोजे जा सकें।

## IOA's Role and Challenges

### आईओआरए की भूमिका और चुनौतियां

- IOA, one of the oldest regional inter-governmental organisations, focuses on cultural and academic exchanges, and key areas like disaster risk management.  
IOA, जो सबसे पुराने क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठनों में से एक है, का ध्यान सांस्कृतिक और शैक्षणिक
- ~~आतंकवाद, सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन~~ जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर है।  
Major global players like the U.S., China, and the European Union are dialogue partners of IOA, but the organisation is mainly driven by middle and small powers.



संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी IORA के संवाद भागीदार हैं, लेकिन यह संगठन मुख्य रूप से मध्यम और छोटे देशों द्वारा संचालित होता है।

- To enhance its **relevance and effectiveness**, IORA needs a **stronger leadership approach**.

अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, IORA को मजबूत नेतृत्व दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

## Issues faced by IORA

### IORA द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- The Indian Ocean region is **relatively free from great power competition** but faces **significant challenges**, particularly in **funding**.  
हिंद महासागर क्षेत्र बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा से अपेक्षाकृत मुक्त है, लेकिन इसे वित्तपोषण सहित कई
- **IORA's annual budget depends on member contributions**, but **only Singapore, UAE, and France** have strong economies, while others are **developing nations in Asia and Africa**.  
IORA का वार्षिक बजट इसके सदस्यों के योगदान पर निर्भर करता है, लेकिन सिर्फ सिंगापुर, यूएई और फ्रांस की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, जबकि अन्य एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश हैं।
- The **budget is only a few million dollars**, whereas the **Indian Ocean Commission**, with just five members, has a **\$1.3 billion budget for 2020-25**.  
IORA का बजट केवल कुछ मिलियन डॉलर का है, जबकि केवल पांच सदस्यीय इंडियन ओशन कमीशन के पास 2020-25 के लिए \$1.3 बिलियन का बजट है।
- **Funding shortages impact IORA's core areas**, including:
  - **Maritime safety and security** (समुद्री सुरक्षा और संरक्षा)
  - **Fisheries management** (मत्स्य पालन प्रबंधन)
  - **Disaster risk management** (आपदा जोखिम प्रबंधन)
  - **Technology and innovation** (प्रौद्योगिकी और नवाचार)
  - **The blue economy** (नीली अर्थव्यवस्था)  
वित्त पोषण की कमी के कारण IORA के प्रमुख क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जैसे:
    - समुद्री सुरक्षा और संरक्षा
    - मत्स्य पालन प्रबंधन
    - आपदा जोखिम प्रबंधन
    - प्रौद्योगिकी और नवाचार
    - नीली अर्थव्यवस्था
- Each of these **areas requires significant resources and continuous engagement**.  
इनमें से हर क्षेत्र को पर्याप्त संसाधन और निरंतर भागीदारी की आवश्यकता होती है।



## Possible Solutions for IORA's Funding

### IORA के वित्त पोषण के लिए संभावित समाधान

- **Private sector involvement** could be a solution, as major **maritime industries** (shipping, oil & gas, marine tourism) are key **stakeholders in the blue economy**.  
निजी क्षेत्र की भागीदारी एक समाधान हो सकती है, क्योंकि प्रमुख समुद्री उद्योग (शिपिंग, तेल और गैस, समुद्री पर्यटन) नीली अर्थव्यवस्था में प्रमुख हितधारक हैं।
- These **industries should be involved in maritime policy-making** and encouraged to **contribute to the IORA fund**.  
इन उद्योगों को समुद्री नीति निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए और IORA कोष में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **IORA's Secretariat, based in Mauritius**, has **limited staff and resources**, making governance and data processing difficult.  
IORA सचिवालय, जो मॉरीशस में स्थित है, के पास सीमित कर्मचारी और संसाधन हैं, जिससे शासन और डेटा प्रबंधन कठिन हो जाता है।
- **Technology can improve governance**, as digitized record-keeping will reduce errors and enhance policy analysis.  
प्रौद्योगिकी शासन को बेहतर बना सकती है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग त्रुटियों को कम करेगी और नीति विश्लेषण को बढ़ाएगी।

## Other Suggestions for India's Role in IORA

### IORA में भारत की भूमिका के लिए अन्य सुझाव

- **India's SAGAR vision (Security and Growth for All) aligns with IORA's objectives**, and India must leverage its strong ties with member states to develop solutions.  
भारत की SAGAR (सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टि, IORA के उद्देश्यों के अनुरूप है, और भारत को अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का उपयोग करके प्रभावी समाधान विकसित करने चाहिए।
- **IORA members like Australia have contributed significantly to marine science and technology research**, while **France and Singapore have strengths in marine-related technologies**.  
IORA सदस्य जैसे ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि फ्रांस और सिंगापुर की समुद्री प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता है।
- **UAE and Oman can support IORA through investments in key sectors** where financial aid is needed.  
यूएई और ओमान IORA को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से समर्थन दे सकते हैं, जहां वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
- **Traditional knowledge from coastal nations like Sri Lanka, Seychelles, and Mauritius** should be integrated into marine governance for sustainable practices.



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



श्रीलंका, सेशेल्स और मॉरीशस जैसे तटीय देशों के पारंपरिक ज्ञान को स्थायी समुद्री शासन में शामिल किया जाना चाहिए।

- Collaborations between industrial leaders and educational institutions should be encouraged to develop new maritime-related courses.

औद्योगिक नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि नए समुद्री-सम्बंधित पाठ्यक्रम विकसित किए जा सकें।

- Marine accounting, an interdisciplinary course, can help strengthen blue economy frameworks.

समुद्री लेखा (Marine Accounting), एक अंतर-अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम, नीली अर्थव्यवस्था ढांचे को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

### TOPICS COVERED (GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. **There is progress on GM food crops, says official**  
जीएम खाद्य फसलों पर प्रगति हो रही है, अधिकारी का बयान
2. **Heat Plan**  
गर्मी योजना
3. **Red-hot Byadgi chilli stings farmers as prices plummet**  
तेजस्वी ब्याडगी मिर्च की कीमतों में गिरावट से किसान संकट में
4. **Rupee Climbs to a 10-Week High**  
रुपया 10 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा
5. **In U.S. Northwest, South Cascade Is Where Glacier Science Developed**
6. **अमेरिका के नॉर्थवेस्ट में, साउथ कैस्केड वह स्थान है जहां ग्लेशियर विज्ञान विकसित हुआ**



# There is progress on GM food crops, says official

Remark comes amid apprehensions over the Environment Ministry's approval for commercial cultivation of GM mustard in 2022; Supreme Court is set to hear pleas on the same next month

## GS Paper III: S&T

**Jacob Koshy**  
NEW DELHI

**A**head of a fresh series of hearings in the Supreme Court next month over genetically modified (GM) food crops, the Department of Biotechnology (DBT) said there was "progress" on this front.

"The matter is *sub judice* but GM mustard stories are being taken up again," DBT Secretary Rajesh Gokhale said at a biotechnology event on Friday. The DBT, which has for years funded research and development into transgenic and GM food crops, comes under the Ministry of Science and Technology.

At present, Bt cotton is the only genetically modified crop allowed to be cultivated. Though the Environment Ministry gave its conditional go-ahead for commercial cultivation of GM mustard in 2022, it has not taken off as it was challenged in the Supreme Court.

Science Minister Jitendra Singh who was also at the event, said, "There is so much dynamism in bio-



**Awaiting hearing:** Petitioners have challenged the Environment Ministry's approval for cultivation of GM mustard. R.V. MOORTHY

technology development that we cannot look at tomorrow through the prism of today."

### Hearing from April 15

On March 6, a three-judge Bench of the Supreme Court said it will begin hearing from April 15 petitions challenging the Environment Ministry's approval for cultivation of GM mustard. The court has told all parties to file their written submissions within a week.

A two-judge Bench of the top court, on July 23, 2024, gave a split verdict

on the validity of the Centre's 2022 decision granting conditional approval for the environmental release of GM mustard crop. However, it also directed the Centre to formulate a "national policy" on GM crops. Mr. Gokhale told *The Hindu* that the DBT had provided "technical inputs" to the Union Environment Ministry, which was formulating the policy and was the "nodal coordinator".

### Safety concerns

GM mustard, developed using public funds, was the

first transgenic food crop to be approved for farmer fields by the Genetic Engineering Appraisal Committee, a scientific body. However, it wasn't approved for cultivation following safety objections by activist groups.

However, the use of biotechnology to improve food crops – as in the case of GM mustard – is a key focus of the government's BioE3 policy.

This involves manufacturing new kinds of enzymes, pharmaceuticals and agricultural products while applying techniques, including genetic engineering.

A report released by the DBT at the event on Friday on the current state of India's 'bio-economy' says that bio-agriculture accounts for 8.1% – the smallest share – of the \$165.7 billion bio-economy in India.

"Valued at \$13.5 billion, this segment enhances agricultural productivity and resilience through genetically modified crops like Bt Cotton and precision agriculture technologies," the report notes.

**There is progress on GM food crops, says official**

**जीएम खाद्य फसलों पर प्रगति हो रही है, अधिकारी का बयान**



Ahead of a fresh Supreme Court hearing next month on genetically modified (GM) food crops, the Department of Biotechnology (DBT) said there was progress on this front.

अगले महीने सुप्रीम कोर्ट में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य फसलों पर सुनवाई से पहले, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है।

- DBT Secretary Rajesh Gokhale, speaking at a biotechnology event on Friday, said that GM mustard discussions are being taken up again, despite the matter being sub judice.

डीबीटी सचिव राजेश गोखले ने शुक्रवार को एक जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में कहा कि जीएम सरसों पर चर्चा फिर से हो रही है, हालांकि मामला न्यायालय में लंबित है।

- The DBT, which has been funding research on GM crops for years, functions under the Ministry of Science and Technology.

डीबीटी, जो वर्षों से जीएम फसलों पर शोध के लिए वित्त पोषण कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

## Status of GM Crop Approvals

### जीएम फसलों की मंजूरी की स्थिति

- At present, Bt cotton is the only genetically modified crop allowed for cultivation in India.  
वर्तमान में, बीटी कपास भारत में एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है, जिसे खेती के लिए अनुमोदित किया गया है।
- Though the Environment Ministry approved GM mustard for commercial cultivation in 2022, it has not been implemented due to a Supreme Court challenge.  
हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय ने 2022 में जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के कारण इसे लागू नहीं किया गया।

## Supreme Court Hearing from April 15

### सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल से सुनवाई

- On March 6, a three-judge Bench of the Supreme Court announced that hearings on petitions challenging the Environment Ministry's approval of GM mustard will begin from April 15.  
6 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने घोषणा की कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जीएम सरसों को दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 15 अप्रैल से शुरू होगी।
- The court has directed all parties to submit written arguments within a week.  
अदालत ने सभी पक्षों को एक सप्ताह के भीतर लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।



- On July 23, 2024, a two-judge Bench delivered a split verdict on the validity of the Centre's 2022 decision, and ordered the government to formulate a national policy on GM crops.  
23 जुलाई 2024 को, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार के 2022 के फैसले पर विभाजित निर्णय दिया, और सरकार को जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्देश दिया।
- DBT has provided technical inputs to the Union Environment Ministry, which is leading the policy formulation process.  
डीबीटी ने केंद्र पर्यावरण मंत्रालय को तकनीकी इनपुट प्रदान किए हैं, जो नीति निर्माण प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है।

## Safety Concerns and BioE3 Policy

### सुरक्षा चिंताएं और बायोई3 नीति

- GM mustard, developed using public funds, was the first transgenic food crop approved for field trials by the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC).  
सार्वजनिक धन का उपयोग करके विकसित जीएम सरसों, आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए अनुमोदित पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल थी।
- However, it was not approved for commercial cultivation due to safety concerns raised by activist groups.  
हालांकि, इसे सक्रियता समूहों द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के कारण व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दी गई।
- The government's BioE3 policy aims to use biotechnology to improve food crops, including GM mustard.  
सरकार की बायोई3 नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य फसलों में सुधार करना है, जिसमें जीएम सरसों भी शामिल है।
- The policy also focuses on developing new enzymes, pharmaceuticals, and agricultural products using genetic engineering techniques.  
यह नीति नई एंजाइम, फार्मास्युटिकल्स और कृषि उत्पादों के विकास पर भी केंद्रित है, जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों का उपयोग करते हैं।

## Current State of India's Bio-Economy

### भारत की बायो-इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति

- A DBT report released on Friday states that bio-agriculture contributes only 8.1% to India's \$165.7 billion bio-economy.  
डीबीटी की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि जैव-कृषि भारत की \$165.7 बिलियन की बायो-इकोनॉमी में केवल 8.1% का योगदान देती है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The bio-agriculture sector is valued at \$13.5 billion and plays a role in enhancing agricultural productivity through GM crops like Bt cotton.

बायो-कृषि क्षेत्र का मूल्य \$13.5 बिलियन है और यह बीटी कपास जैसी जीएम फसलों के माध्यम से कृषि

उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

## Heat plan

## Heat Plan

India must develop a comprehensive heat strategy ahead of COP30

GS Paper III: Environment

Summer has arrived early in several parts of India. In the last week of February, heatwaves were officially reported in Goa and Maharashtra. States such as Odisha, Telangana, and Maharashtra have already recorded temperatures exceeding 40°C. Throughout most of February, 31 States and Union Territories experienced night temperatures at least 1°C above normal, with 22 States and Union Territories reporting night temperatures that were 3°C to 5°C above normal. Given that February is classified as 'winter' by the India Meteorological Department, these are signposts that point toward new climate normals. Scientists have long warned that rising global temperatures – both on land and sea – will result in more intense and frequent heatwaves. This underscores the need for countries and States to prepare for heat events just as they do for earthquakes or floods. However, a recent study by the Sustainable Futures Collaborative, which examined heat-related preparedness in nine Indian cities, found that none had long-term plans in place. Most responses are limited to short-term emergency measures such as providing drinking water, adjusting work hours, and boosting hospital capacity during heatwaves. Crucial long-term interventions such as ensuring access to household or occupational cooling for vulnerable populations, insuring workers against lost income on extremely hot days, improving fire management, and upgrading electricity grids for reliability are missing. Few cities have even begun planning for expanded local weather monitoring, mapping urban heat islands, or training those responsible for implementing heat plans. Other strategies, which include increasing green cover, creating open spaces to reduce heat, and deploying rooftop solar for active cooling, are often carried out without targeting the populations that are most at risk.

While global efforts to combat climate change largely focus on cutting greenhouse gas emissions, the limited progress on that front is shifting attention to adaptation – particularly in managing responses to heat. Affordable cooling devices are frequently recommended, but they raise concerns about increased use of ozone-depleting refrigerants. Experts now advocate having sustainable buildings, green infrastructure, and passive cooling solutions, although these too can impact land prices and urban planning. India must develop a comprehensive national heat strategy and embed it within its National Adaptation Plan ahead of the 30th UN Climate Change Conference (COP30) in Brazil in November.

## गर्मी योजना

Summer has arrived early in many parts of India, with heatwaves officially reported in Goa and Maharashtra in February.

भारत के कई हिस्सों में गर्मी समय से पहले आ गई है, और फरवरी में गोवा और महाराष्ट्र में आधिकारिक रूप से लू दर्ज की गई।

- Odisha, Telangana, and Maharashtra have already recorded temperatures exceeding 40°C.

ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पहले ही 40°C से अधिक तापमान दर्ज किया गया है।

- In February, 31 States and Union Territories experienced night temperatures at least 1°C above normal, while 22 States and UTs recorded 3°C to 5°C above normal.

फरवरी में, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रात का तापमान सामान्य से 1°C अधिक था, जबकि 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तापमान 3°C से 5°C अधिक रहा।

- February is classified as 'winter' by the India Meteorological Department (IMD), making these temperature anomalies a sign of new climate patterns.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा फरवरी को 'सर्दी' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे यह तापमान असामान्यता नए जलवायु परिवर्तन का संकेत देती है।

## Rising Global Temperatures and Heatwaves

### वैश्विक तापमान वृद्धि और लू

- Scientists warn that rising global temperatures—both on land and sea—will lead to more frequent and intense heatwaves.

वैज्ञानिकों का कहना है कि भूमि और समुद्र दोनों पर बढ़ते वैश्विक तापमान से अधिक बार और तीव्र लू चलने की संभावना बढ़ जाएगी।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)

Contact Number : 9971932488

Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)



- Countries must **prepare for heat events** just as they do for **earthquakes or floods**.  
देशों को भूकंप या बाढ़ की तरह ही लू की घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।
- A recent study by the **Sustainable Futures Collaborative** found that **none of the nine Indian cities** examined had long-term heat action plans.  
सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव के एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि जांच किए गए नौ भारतीय शहरों में से किसी के पास दीर्घकालिक गर्मी से निपटने की योजना नहीं थी।

## Short-term vs Long-term Heat Preparedness

### अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक गर्मी से निपटने की तैयारी

- Most cities focus on **short-term emergency measures** such as:
  - **Providing drinking water** (पेयजल उपलब्ध कराना)
  - **Adjusting work hours** (काम के घंटे समायोजित करना)
  - **Boosting hospital capacity during heatwaves** (लू के दौरान अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना)
- **Crucial long-term strategies** are missing, including:
  - **Access to cooling for vulnerable populations** (जोखिमग्रस्त आबादी के लिए शीतलन की सुविधा)
  - **Insuring workers against lost income due to extreme heat** (अत्यधिक गर्मी के कारण मजदूरों की आय के नुकसान के लिए बीमा)
  - **Fire management improvements** (अग्नि प्रबंधन में सुधार)
  - **Upgrading electricity grids for reliability** (बिजली ग्रिड को अधिक विश्वसनीय बनाना)
- **Few cities** have started planning for:
  - **Expanded local weather monitoring** (स्थानीय मौसम निगरानी को बढ़ाना)
  - **Mapping urban heat islands** (शहरी गर्मी द्वीपों का मानचित्रण करना)
  - **Training personnel to implement heat plans** (गर्मी योजनाओं को लागू करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना)
- **Green initiatives** such as **increasing green cover, creating open spaces, and deploying rooftop solar panels** are not always targeted at the most vulnerable populations.  
हरित पहल, जैसे हरीत क्षेत्र बढ़ाना, खुले स्थान बनाना और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना, हमेशा सबसे अधिक प्रभावित आबादी को ध्यान में रखकर नहीं की जाती हैं।

## Shifting Focus to Adaptation

### अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना



- **Global efforts to combat climate change** primarily focus on **reducing greenhouse gas emissions**, but **slow progress** is shifting attention towards **adaptation strategies**.  
जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों का मुख्य ध्यान ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर है, लेकिन धीमी प्रगति के कारण अब अनुकूलन रणनीतियों पर ध्यान दिया जा रहा है।
- **Affordable cooling devices** are frequently recommended, but they **increase the use of ozone-depleting refrigerants**.  
सस्ते शीतलन उपकरणों की सिफारिश की जाती है, लेकिन वे ओजोन-क्षयकारी रेफ्रिजरेंट के उपयोग को बढ़ाते हैं।
- **Experts advocate for sustainable solutions** such as:
  - **Green buildings** (हरित भवन)
  - **Green infrastructure** (हरित बुनियादी ढांचा)
  - **Passive cooling techniques** (प्राकृतिक शीतलन तकनीक)
- However, these solutions can **impact land prices and urban planning**.  
हालांकि, ये समाधान भूमि की कीमतों और शहरी नियोजन को प्रभावित कर सकते हैं।

## India's Need for a National Heat Strategy

### भारत को राष्ट्रीय गर्मी रणनीति की आवश्यकता

- **India must develop a comprehensive national heat strategy** ahead of **COP30 (UN Climate Change Conference)** in **Brazil, November 2025**.  
भारत को नवंबर 2025 में ब्राजील में होने वाले COP30 (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) से पहले एक व्यापक राष्ट्रीय गर्मी रणनीति विकसित करनी चाहिए।
- This strategy should be **embedded in India's National Adaptation Plan**, ensuring a **long-term, sustainable approach to heat management**.  
यह रणनीति भारत की राष्ट्रीय अनुकूलन योजना में शामिल होनी चाहिए, ताकि गर्मी प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



**The plunge:** In February 2024, the average price for Byadgi Kaddi, Byadgi Dabbi, and Guntur varieties stood at ₹35,099, ₹38,951, and ₹13,509 a quintal, respectively. On Thursday, they were ₹23,359, ₹25,869, and ₹12,209, a quintal respectively. K MURALI KUMAR

PATRIOTIC



# Red-hot Byadgi chilli stings farmers as prices plummet

**Byadgi chillies** are a must in every kitchen for their special colour and flavour. But the growers of this variety in several parts of north Karnataka are in distress as prices are falling. **Girish Pattanashetti** travelled to the chilli market in Byadgi in Haveri district to talk to the farmers

**GS Paper III: Agriculture**

It's Thursday noon at the APMC yard in Byadgi and police sub-inspector Arvind P.S. is giving instructions to police personnel about the first of the two route marches to be taken out in the market yard. A little later, the yard reverberates with the siren of the police vehicles which take the designated road of the route march. Farmers wait beside their heaps of bags of red chillies and look on anxiously. "Don't worry, it is a routine exercise," Kanthesh, who works for a commission agent at the market yard, comforts an anxious farmer. The vehicles are back at the APMC office after the march and the personnel stand guard at vantage points. The exercise is repeated after 3 p.m.



Mounesh Acharya, a chilli farmer from Dommur in Ballari district, waits for bidders to arrive at the Byadgi APMC yard. **GIRISH PATTANASHETTI**

In the market spread across 78 acres in Byadgi town of Haveri district in north Karnataka, the route march is taken out twice on Mondays and Thursdays when the chilli market is open. The Byadgi variety of chilli is known the world over for its colour and unique flavour.

This has been the practice since March 11, 2024, the day when the APMC (Agricultural Produce Marketing Committee) office was torchred and a few vehicles, including a fire engine, were gutted, says a policeman on duty, as several others, including a few who suffered minor injuries during the violence, keep vigil. The APMC office now wears a new look after a fresh coat of paint.

At a distance, sitting under the shade and standing by the roadside, first-time visitors to the market are being told tales of the violent protest a year ago, and the subsequent arrests and losses.

Meanwhile, unmindful of the siren, Basavaraj Navale, who works for the commission agents, and trader B.M. Chatrad are busy assessing the quality of the chilli kept for auction. The likes of Basavaraj, who are scattered over the big yard, have already completed the assessment of the quality of the chilli pods and have written down the bids for each lot they assessed. Traders and commission agents Basavaraj Chatrad and Malatesh Chatrad too are busy doing the same. However, their work is limited to the lots in the open space before their office.

Nothing much seems to have changed after the violence in the Byadgi APMC yard a year ago over the sudden dip in prices of different varieties of red chillies.

**Downward trend**  
What has caused concern yet again this year is the further dip in the prices, leading to sporadic protests not in Byadgi but in far-off places like Ka-



Workers unloading chilli bags at the Byadgi APMC yard on Thursday. **GIRISH PATTANASHETTI**



**Old stock is the biggest problem and what has affected the traders is that the crop, which they bought at a higher price and kept in cold storage, is now fetching even lower price.**

**GANESH ACHALKAR, trader**

laburagi and Raichur, where the Guntur variety has seen much lower bids. The series of meetings officials and Minister of Textiles, Sugarcane Development and Agricultural Marketing Shivanna Patil, had with farmers and APMC merchants, don't seem to have made any impact so far except for the increase in police bandobast. Cold storage in Byadgi promised by the Minister has not materialised as suitable land couldn't yet be found.

In February last year, the average prices for Byadgi Kaddi, Byadgi Dabbi and Guntur stood at ₹35,099, ₹38,951 and ₹13,509, a quintal respectively. In February this year, the average prices for the same varieties were ₹27,009, ₹28,2098 and ₹13,900 a quintal respectively.

On Thursday, Byadgi recorded arrivals of 2,47,196 bags and the average prices for Kaddi and Dabbi varieties were ₹23,359 and ₹25,869 a quintal respectively, and the Guntur variety fetched average price of ₹12,209.

Last year, Byadgi yard recorded arrivals of 68,36,363 bags recording a turnover of ₹3,187.73



Vehicles on fire after a mob, comprising mainly farmers, resorted to violence following the sudden fall in the prices of different varieties of chillies, at the APMC yard in Byadgi in March 2024. **FILE PHOTO**

core and this year, it seems to cross last year's arrivals. However, the turnover is less due to low prices.

Byadgi has not witnessed any protest over the prices this year but the pain is palpable on the faces of farmers who have travelled covering over 250 km carrying their produce in anticipation of a good price.

Last week, Parameshappa U. from Tangaradonna in Kurnool district of Andhra Pradesh brought 50 bags of Byadgi Kaddi variety, which fetched ₹11,000 per quintal. On Thursday, he was back in Byadgi with 10 bags, but not sure about fetching the same price. His friend from the same village, Brahmanand Reddy, was too not hopeful.

"They say there is no demand and last year's stock is still in the cold storage," Parameshappa said. He has been coming to Byadgi since 1996 and the highest price he got was ₹48,000 for the native Byadgi Kaddi variety three years ago. But this year, he has incurred a loss of ₹1 lakh.

Sitting on the pile of bags and waiting for the bids to be made, Mounesh Acharya from Dommur village in Ballari district is also not that optimistic. "The cost of bringing one bag of red chilli to the Byadgi market is around ₹200. The expenditure per acre is between ₹1 lakh to ₹1.5 lakh. If I get ₹12,000 per quintal that will meet the expenses", he said.

**Problem of plenty**  
Like last year, record arrivals and the problem of plenty have resulted in prices falling particularly for varieties developed by seed companies. What has added to the problems of farmers and traders is the stock of the previous two years.

"Nearly 40% of the previous years' stock has been carried over to this year and is still lying in the cold storage because of low prices," said Basavaraj Chatrad, president of the dispute redressal committee of the APMC Merchants Association.

"Old stock is the biggest problem and what has affected the traders is that the crop they bought at a higher price and kept in cold storage, is now fetching even lower price" said trader and commission agent Ganesh Achalkar.

Shivaraj Chatrad, who has returned to Byadgi to join his father in the trade, after his MBA in London, cites three reasons for the drop in prices. "One, the problem of old stock left with the traders. Two, the spice companies also have excess stock. And three, increased quantum of rejection in exports due to stringent test parameters introduced of late."

**Tougher testing parameters**  
Western countries have made the testing parameters stringent after traces of cancer-causing agents were found in exported consignments. While Asian countries have less strict testing parameters, they too have problem of plenty, he says.

Secretary of APMC Merchants Association, Byadgi V.S. Morigeri (Badji) believes the use of banned pesticides by farmers is the major reason for increase in the instances of rejection of export consignments. "50% of the chillies procured in

Byadgi APMC Market are exported in different forms like destemmed pods, extracted colour and Oleoresin capsicum. However, because of good stock, the companies involved are demanding high-quality pods at lower prices this year," he said.

Another reason for the lesser demand for the Byadgi Dabbi and Kaddi varieties is that the high prices these varieties fetched during the previous years made the companies switch to other affordable varieties with less colour.

**Is there a solution?**  
As of now, there seems to be no immediate solution as the arrivals continue to swell day after day with more farmers across the country getting into chilli cultivation. The price drop has already resulted in the Centre announcing market intervention steps in Andhra Pradesh.

Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah has now written to Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan for a similar step for chilli growers in Karnataka.

"I write to you with deep concern for the lakhs of red chilli farmers in Karnataka, particularly in the Kalyana Karnataka region, who are facing an unprecedented crisis due to the drastic fall in market prices," he said in his letter.



Chilli bags kept for auction at the Byadgi APMC yard. **GIRISH PATTANASHETTI**

He pointed out that the Government of India had approved the Price Deficiency Payment scheme under the Market Intervention Scheme for Red Chillies (Guntur Variety) in Andhra Pradesh, fixing the Minimum Intervention Price (MIP) at ₹17,781 per quintal with coverage for up to 25% of production. "While this is a welcome step, the distressed faced by Karnataka's red chilli farmers remains unaddressed," he wrote.

The Chief Minister demanded an increase in MIP to ₹15,500 per quintal terming the current MIP of ₹11,781 per quintal as inadequate considering the rising input costs and the significantly higher cost of production in Karnataka. He also demanded expanding coverage to at least 75% of production.

Former Chief Minister Basavaraj Bommai also wrote a similar letter to Mr. Chauhan soon after. Channaras Mallipattil, Honorary President of Karnataka Raita Sangha, demanded that the government fix MIP up to ₹15,000 and above per quintal to help farmers. "We will raise this issue during Chief Minister's future scheduled meeting," he said.

There are other initiatives in the offing too. "The State government earmarked ₹25 crore to establish a red chilli market in 10 areas of land in Raichur and tender was floated. The work is expected to be completed by the end of December 2025. Farmers can sell the product at the same price as in the Byadgi and Guntur markets. They can save transportation and vehicle halting charges and other labour expenditure," says Adappa, additional Director, APMC Raichur.

**Long-term solution**  
But Morigeri believes that in the long run, only a reduction in arrivals and shifting to other crops, resulting in quality yield may see an increase rise in the prices in the coming years.

(With inputs from Ravikumar Naraboli in Yadgir)

## Red-hot Byadgi chilli stings farmers as prices plummet तेजस्वी ब्याडगी मिर्च की कीमतों में गिरावट से किसान संकट में

Byadgi chillies, known for their rich color and unique flavor, are facing a price drop, leaving farmers distressed.

विशेष रंग और अनोखे स्वाद के लिए मशहूर ब्याडगी मिर्च की कीमतों में गिरावट से किसान परेशान हैं।



- The **market yard in Byadgi, Haveri district, Karnataka**, witnesses **police route marches twice a week (Mondays & Thursdays)** to maintain law and order.  
कर्नाटक के हावेरी जिले के ब्याडगी मंडी यार्ड में सप्ताह में दो बार (सोमवार और गुरुवार) पुलिस मार्च निकाला जाता है।
- **Violence erupted on March 11, 2024, when the APMC office was set on fire due to a sudden dip in chilli prices.**  
11 मार्च 2024 को हिंसा भड़की, जब ब्याडगी APMC कार्यालय में आग लगा दी गई क्योंकि मिर्च की कीमतों में अचानक गिरावट आई।

## Price Trends and Farmer Struggles

### कीमतों की प्रवृत्ति और किसानों की समस्याएं

- In **February 2023**, average prices per quintal were:
  - **Byadgi Kaddi** – ₹35,099
  - **Byadgi Dabbi** – ₹38,951
  - **Guntur variety** – ₹13,509फरवरी 2023 में प्रति क्विंटल औसत कीमतें थीं:
  - **ब्याडगी कड्डी** – ₹35,099
  - **ब्याडगी डब्बी** – ₹38,951
  - **गुंटूर किस्म** – ₹13,509
- In **February 2024**, prices dropped further:
  - **Byadgi Kaddi** – ₹27,009
  - **Byadgi Dabbi** – ₹28,209
  - **Guntur variety** – ₹13,900फरवरी 2024 में कीमतें और गिर गईं:
  - **ब्याडगी कड्डी** – ₹27,009
  - **ब्याडगी डब्बी** – ₹28,209
  - **गुंटूर किस्म** – ₹13,900
- On **Thursday**, **Byadgi market received 2,47,196 bags**, with **average prices**:
  - **Byadgi Kaddi** – ₹23,359 per quintal
  - **Byadgi Dabbi** – ₹25,869 per quintal
  - **Guntur variety** – ₹12,209 per quintalगुरुवार को ब्याडगी मंडी में **2,47,196 बैग** पहुंचे, जिसमें औसत कीमतें थीं:
  - **ब्याडगी कड्डी** – ₹23,359 प्रति क्विंटल
  - **ब्याडगी डब्बी** – ₹25,869 प्रति क्विंटल
  - **गुंटूर किस्म** – ₹12,209 प्रति क्विंटल



## Impact on Farmers

### किसानों पर प्रभाव

- Despite increased arrivals, overall turnover has decreased due to low prices.  
बढ़ती आवक के बावजूद, कम कीमतों के कारण कुल कारोबार घटा है।
- Many farmers have traveled over 250 km to Byadgi, hoping for better prices, but are left disappointed.  
कई किसान 250 किमी से अधिक की यात्रा कर ब्याडगी पहुंचे, लेकिन उचित मूल्य न मिलने से निराश हैं।
- Farmers from Andhra Pradesh's Kurnool district reported significant losses:
  - Parameshappa U. brought 50 bags in February, earning ₹11,000 per quintal.
  - This time, he brought only 10 bags, uncertain of fetching the same price.  
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के किसानों ने भारी नुकसान की सूचना दी:
  - परमेशप्पा यू. ने फरवरी में 50 बैग लाए और ₹11,000 प्रति क्विंटल मिले।
  - इस बार केवल 10 बैग लाए, लेकिन कीमत को लेकर अनिश्चित हैं।
- Three years ago, prices were as high as ₹48,000 per quintal, but this year, some farmers have suffered losses of ₹1 lakh or more.  
तीन साल पहले कीमतें ₹48,000 प्रति क्विंटल थीं, लेकिन इस साल कई किसानों को ₹1 लाख या उससे अधिक का नुकसान हुआ।
- Farmers' expenses per acre range from ₹1 lakh to ₹1.5 lakh, and to break even, prices need to be at least ₹12,000 per quintal.  
किसानों का प्रति एकड़ खर्च ₹1 लाख से ₹1.5 लाख के बीच है, और लागत निकालने के लिए कीमत कम से कम ₹12,000 प्रति क्विंटल होनी चाहिए।

## Government Response and Market Challenges

### सरकारी प्रतिक्रिया और बाजार की चुनौतियां

- Minister Shivanand Patil held several meetings with farmers and merchants, but no significant impact has been seen except for increased police presence.  
मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों और व्यापारियों के साथ कई बैठकें कीं, लेकिन पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के अलावा कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
- Promised cold storage facilities in Byadgi have not materialized due to land acquisition issues.  
ब्याडगी में वादा किया गया कोल्ड स्टोरेज भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण अभी तक पूरा नहीं हुआ।
- Farmers claim last year's stock is still in storage, leading to reduced demand and lower prices.  
किसानों का कहना है कि पिछले साल का स्टॉक अभी भी भंडारण में है, जिससे मांग कम हो गई है और कीमतें गिर गई हैं।



- Unlike last year, Byadgi has not seen major protests, but farmers' distress is evident.  
पिछले साल की तुलना में इस साल ब्याडगी में बड़े विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन किसानों की पीड़ा स्पष्ट है।

## Problem of Plenty

### अधिकता की समस्या

- Like last year, record arrivals and the problem of plenty have resulted in **prices falling**, particularly for varieties developed by **seed companies**.  
पिछले साल की तरह, रिकॉर्ड आवक और अधिकता की समस्या के कारण **कीमतें गिर गई हैं**, विशेष रूप से बीज कंपनियों द्वारा विकसित किस्मों के लिए।
- **Stock of the previous two years** has added to the problems of **farmers and traders**.  
पिछले दो वर्षों का भंडार किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को बढ़ा रहा है।
- **Nearly 40% of the previous years' stock** has been carried over to this year and is still lying in cold storage due to **low prices**, said **Basavaraj Chatrad**, president of the dispute redressal committee of **APMC Merchants Association**.  
पिछले वर्षों का लगभग 40% भंडार इस वर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है और अभी भी कम कीमतों के कारण कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है, यह कहना है एपीएमसी मर्चेंट्स एसोसिएशन की विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष बसवराज चत्राड का।
- **Old stock is the biggest problem**, and what has affected the traders is that **the crop they bought at a higher price and kept in cold storage is now fetching even lower price**, said trader and commission agent **Ganesh Achalkar**.  
पुराना भंडार सबसे बड़ी समस्या है, और व्यापारियों को जो प्रभावित कर रहा है वह यह कि उन्होंने जो फसल ऊंची कीमत पर खरीदी थी और कोल्ड स्टोरेज में रखी थी, अब वह और भी कम कीमत पर बिक रही है, ऐसा कहना है व्यापारी और कमीशन एजेंट गणेश अचालकर का।

## Reasons for Price Drop

### कीमतों में गिरावट के कारण

- **Shivaraj Chatrad**, an MBA graduate from **London**, cites three main reasons: लंदन से एमबीए किए हुए शिवराज चत्राड तीन मुख्य कारण बताते हैं:
  - **Old stock** left with traders.  
व्यापारियों के पास पड़ा पुराना भंडार।
  - **Excess stock with spice companies**.  
मसाला कंपनियों के पास भी अधिक भंडार।



- Increased rejection in exports due to stringent test parameters.  
निर्यात में अस्वीकृति की बढ़ती मात्रा क्योंकि कड़े परीक्षण मानकों को लागू किया गया है।

## Tougher Testing Parameters

### कठोर परीक्षण मानक

- **Western countries** have introduced **stricter testing parameters** after traces of **cancer-causing agents** were found in exported consignments.  
पश्चिमी देशों ने निर्यात खेपों में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के पाए जाने के बाद कठोर परीक्षण मानकों को लागू किया है।
- **Asian countries** have **less strict testing**, but they too are facing a **problem of plenty**.  
एशियाई देशों में कम कठोर परीक्षण हैं, लेकिन वे भी अधिकता की समस्या का सामना कर रहे हैं।
- **V.S. Morigeri (Raju)**, Secretary of **APMC Merchants Association, Byadgi**, believes that the **use of banned pesticides by farmers** is a major reason for the **increase in rejection of export consignments**.  
एपीएमसी मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, बयडगी के सचिव वी.एस. मोरीगेरी (राजू) का मानना है कि किसानों द्वारा प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग निर्यात खेपों की अस्वीकृति दर बढ़ने का मुख्य कारण है।

## Reduced Demand for Byadgi Chillies

### बयडगी मिर्च की मांग में कमी

- **50% of the chillies procured in Byadgi APMC Market** are exported in different forms like **destemmed pods, extracted colour, and Oleoresin capsicum**.  
बयडगी एपीएमसी बाजार में खरीदी गई 50% मिर्च विभिन्न रूपों में निर्यात की जाती है, जैसे डंठल रहित फली, निकाला गया रंग, और ओलियोरेसिन कैप्सिकम।
- **Companies are demanding high-quality pods at lower prices due to good stock availability**.  
अच्छे भंडार की उपलब्धता के कारण कंपनियां कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली फली की मांग कर रही हैं।
- **High prices in previous years** led companies to **switch to more affordable varieties with less colour**.  
पिछले वर्षों में उच्च कीमतों के कारण कंपनियों ने कम रंग वाली सस्ती किस्मों की ओर रुख कर लिया।

## Government Intervention & Proposed Solutions

### सरकारी हस्तक्षेप और प्रस्तावित समाधान

- The Centre has already announced market intervention in Andhra Pradesh due to the price drop.  
केंद्र सरकार ने कीमतों में गिरावट के कारण पहले ही आंध्र प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप की घोषणा कर दी है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- Karnataka CM Siddaramaiah has written to Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivaraj Singh Chauhan, requesting a similar intervention for Karnataka's chilli farmers.  
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर्नाटक के मिर्च किसानों के लिए इसी तरह के हस्तक्षेप की मांग की है।
- The Government of India approved the Price Deficiency Payment Scheme for Guntur variety chillies in Andhra Pradesh with a Minimum Intervention Price (MIP) of ₹11,781 per quintal covering up to 25% of production.  
भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में गुन्टूर किस्म की मिर्च के लिए मूल्य कमी भुगतान योजना को मंजूरी दी, जिसमें ₹11,781 प्रति क्विंटल का न्यूनतम हस्तक्षेप मूल्य (MIP) तय किया गया और 25% उत्पादन तक कवरेज प्रदान किया गया।
- Siddaramaiah demanded an increase in MIP to ₹13,500 per quintal and coverage expansion to 75% of production.  
सिद्धारमैया ने MIP को बढ़ाकर ₹13,500 प्रति क्विंटल करने और कवरेज को 75% उत्पादन तक विस्तारित करने की मांग की।
- Former CM Basavaraj Bommai also wrote a similar letter to Shivaraj Singh Chauhan.  
पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी शिवराज सिंह चौहान को ऐसा ही पत्र लिखा।
- Karnataka Raita Sangha Honorary President Chamaras Malipatil demanded an MIP of ₹15,000 per quintal to help farmers.  
कर्नाटक रैता संघ के मानद अध्यक्ष चमरास मालीपाटिल ने किसानों की सहायता के लिए ₹15,000 प्रति क्विंटल MIP की मांग की।
- State government has earmarked ₹25 crore to establish a red chilli market in Raichur on 10 acres of land, expected to be completed by December 2025.  
राज्य सरकार ने रायचूर में 10 एकड़ भूमि पर लाल मिर्च बाजार स्थापित करने के लिए ₹25 करोड़ आवंटित किए हैं, जो दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

## Long-term Solution

### दीर्घकालिक समाधान

- APMC Secretary V.S. Morigeri believes that only a reduction in arrivals and shifting to other crops will result in quality yield and higher prices in the coming years.  
एपीएमसी सचिव वी.एस. मोरीगेरी का मानना है कि आवक में कमी और अन्य फसलों की ओर बदलाव से गुणवत्तापूर्ण पैदावार और आने वाले वर्षों में कीमतों में बढ़ोतरी संभव होगी।



# Rupee climbs to a 10-week high

The domestic currency's gain was supported by stronger-than-expected trade data and a rise in foreign exchange reserves following the RBI's USD/INR swap intervention; rupee emerges 'top performer' among Asian currencies so far this month


**GS Paper III: External Sector**

**Ashokamithran T.**  
MUMBAI

The rupee on Friday climbed to a 10-week high of ₹86 against the U.S. dollar due to a surge in foreign inflows into domestic equities and debt markets, analysts said. The domestic currency was trading at ₹85.89 a dollar on January 9, 2025.

The rupee surged nearly 0.1% on Friday, making it the eighth consecutive day of appreciation against the dollar. It closed at ₹85.98 against the U.S. dollar.

On a weekly basis, the



rupee surged 1.1% with the appreciation on Friday.

"The rupee's gain was supported by stronger-than-expected trade data

and a rise in foreign exchange reserves following the Reserve Bank of India's (RBI) USD/INR swap intervention," said Dilip Par-

mar, Research Analyst, HDFC Securities.

"The central bank's efforts have paid off, with the rupee emerging as the top performer among Asian currencies so far this month," he said, adding that in the short term, the rupee is expected to receive support at 85.70 and resistance at 86.45.

Jateen Trivedi, Vice President, Research Analyst – Commodity and Currency, LKP Securities said, "Rupee strengthened as FII inflows surged with strong buying figures in recent days." "The Fed's decision to hold rates steady and its

forecast for lower interest rates ahead pulled the dollar down, providing significant support to the rupee but major capital market strengthening gives rupee the strong push higher," he added. Equity markets also reported gains on Friday, with frontline indices rising by 0.7%.

The NSE Nifty extended its bullish run for a fifth consecutive session, closing higher by 159 points, or 0.69%, at 23,350. NSE cash market volumes surged dramatically by 53% from the previous day, reaching their highest level since November 25, 2024.

## Rupee Climbs to a 10-Week High

### रुपया 10 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा

The rupee on Friday climbed to a 10-week high of ₹86 against the U.S. dollar due to a surge in foreign inflows into domestic equities and debt markets, analysts said.

शुक्रवार को रुपया 10 सप्ताह के उच्च स्तर ₹86 प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया क्योंकि घरेलू इक्विटी और ऋण बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ा, विश्लेषकों ने कहा।

- On January 9, 2025, the rupee was trading at ₹85.89 per dollar.  
9 जनवरी 2025 को रुपया ₹85.89 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था।
- The rupee surged nearly 0.1% on Friday, making it the eighth consecutive day of appreciation against the dollar.  
शुक्रवार को रुपया लगभग 0.1% बढ़ा, जिससे यह लगातार आठवें दिन डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ।
- It closed at ₹85.98 against the U.S. dollar.  
यह ₹85.98 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ।
- On a weekly basis, the rupee surged 1.1% with the appreciation on Friday.  
साप्ताहिक रूप से, शुक्रवार की बढ़त के साथ रुपया 1.1% बढ़ा।

## Reasons for the Rupee's Gain



## रुपये की मजबूती के कारण

- "The rupee's gain was supported by stronger-than-expected trade data and a rise in foreign exchange reserves following the RBI's USD/INR swap intervention," said Dilip Parmar, Research Analyst, HDFC Securities.  
"रुपये की मजबूती को अपेक्षा से बेहतर व्यापार डेटा और आरबीआई के USD/INR स्वेप हस्तक्षेप के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का समर्थन मिला," कहा दिलीप परमार, रिसर्च एनालिस्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज।
- The central bank's efforts have paid off, with the rupee emerging as the top performer among Asian currencies so far this month.  
केंद्रीय बैंक के प्रयास सफल रहे, क्योंकि रुपया इस महीने अब तक एशियाई मुद्राओं में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना।
- In the short term, the rupee is expected to receive support at 85.70 and resistance at 86.45.  
कम अवधि में, रुपये को 85.70 पर समर्थन और 86.45 पर प्रतिरोध मिलने की संभावना है।

## Impact of FII Inflows and U.S. Federal Reserve Decision

### विदेशी संस्थागत निवेश और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का प्रभाव

- Jateen Trivedi, Vice President, Research Analyst - Commodity and Currency, LKP Securities, said, "Rupee strengthened as FII inflows surged with strong buying figures in recent days."  
जतिन त्रिवेदी, उपाध्यक्ष, रिसर्च एनालिस्ट - क्मोडिटी और करेंसी, एलकेपी सिक्योरिटीज ने कहा, "रुपया मजबूत हुआ क्योंकि हाल के दिनों में विदेशी संस्थागत निवेश (FII) में वृद्धि और मजबूत खरीदारी देखी गई।\*\*
- "The Fed's decision to hold rates steady and its forecast for lower interest rates ahead pulled the dollar down, providing significant support to the rupee but major capital market strengthening gives rupee the strong push higher," he added.  
"फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने और भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की भविष्यवाणी ने डॉलर को कमजोर कर दिया, जिससे रुपये को महत्वपूर्ण समर्थन मिला, लेकिन पूंजी बाजार की मजबूती ने रुपये को ऊपर की ओर बढ़ावा दिया," उन्होंने जोड़ा।

## Stock Market Gains

### शेयर बाजार में बढ़त

- Equity markets also reported gains on Friday, with frontline indices rising by 0.7%.  
शुक्रवार को इक्विटी बाजारों में भी बढ़त देखी गई, जिसमें प्रमुख सूचकांक 0.7% बढ़े।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>


**CONTACT: 9971932488**



- The NSE Nifty extended its bullish run for a fifth consecutive session, closing higher by 159 points, or 0.69%, at 23,350.  
एनएसई निफ्टी ने लगातार पांचवें सत्र में तेजी जारी रखी, और 159 अंकों (0.69%) की बढ़त के साथ 23,350 पर बंद हुआ।
- NSE cash market volumes surged by 53% from the previous day, reaching their highest level since November 25, 2024.  
एनएसई नकद बाजार की मात्रा पिछले दिन की तुलना में 53% बढ़ गई, जो 25 नवंबर 2024 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।

PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**



# In U.S. Northwest, South Cascade is where glacier science developed


## GS Paper III: Climate Change

**Agence France-Presse**  
LOS ANGELES

For nearly 70 years scientists have been probing, measuring, drilling and generally getting to know South Cascade Glacier in the U.S. Northwest, developing and honing skills now used worldwide.

Generations of glaciologists have studied the slow-moving ice mass in Washington state, which was named “glacier of the year” on Friday by the World Meteorological Organization (WMO) and is one of five “benchmark” U.S. glaciers, keeping tabs on how they are changing as human activity warms the Earth.

While glaciers have been studied in Europe since at least the 19th century, what scientists



Satellite images taken from August 28, 2000 (left), and September 10, 2006, show the South Cascade Glacier retreating. AFP

learned here has been invaluable.

“A lot of the scientific methods that we use to measure glaciers were developed here,” said Andrew Fountain, professor emeritus at Portland State University, who specialises in glaciers and climate change.

That includes the use of

ice radar, which allowed researchers to see just how thick the ice is in a spot where a glacier has probably existed for upwards of a million years.

### Ideal for studying

South Cascade Glacier sits in a basin at the head of the South Fork of the Cascade river, which flows down ul-

timately into Puget Sound.

The size of the basin – more than 2 square miles – along with its straightforward geometry made it ideal to study for scientists wanting to know how these dynamic bodies are faring in the changing world.

A glacier is a perennial accumulation of snow and ice that is always on the move, abrading the rocks underneath and – over a long enough period of time – carving valleys.

Measurements began at the site in 1958, according to the U.S. Geological Survey, the government body that studies the natural environment.

Over nearly seven decades, glaciologists have been able “to track how the glacier is responding to climate.”

## In U.S. Northwest, South Cascade Is Where Glacier Science Developed

अमेरिका के नॉर्थवेस्ट में, साउथ कैस्केड वह स्थान है जहां ग्लेशियर विज्ञान

विकसित हुआ

For nearly 70 years, scientists have been probing, measuring, and drilling South Cascade Glacier in the U.S. Northwest.

लगभग 70 वर्षों से, वैज्ञानिक अमेरिका के नॉर्थवेस्ट में साउथ कैस्केड ग्लेशियर का अध्ययन, मापन और खुदाई कर रहे हैं।



- These studies helped develop and refine skills now used worldwide.  
इन अध्ययनों ने उन कौशलों को विकसित और परिष्कृत करने में मदद की, जो अब दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं।
- Generations of glaciologists have studied this slow-moving ice mass in Washington state.  
वाशिंगटन राज्य में ग्लेशियर विशेषज्ञों की पीढ़ियों ने इस धीमी गति से चलने वाले बर्फीले द्रव्यमान का अध्ययन किया है।
- It was named "Glacier of the Year" on Friday by the World Meteorological Organization (WMO).  
इसे शुक्रवार को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा "ग्लेशियर ऑफ द ईयर" नामित किया गया।
- South Cascade is one of the five "benchmark" U.S. glaciers tracking climate change.  
साउथ कैस्केड अमेरिका के पांच "बेंचमार्क" ग्लेशियरों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन पर नजर रख रहा है।

## Scientific Contributions of South Cascade Glacier

### साउथ कैस्केड ग्लेशियर का वैज्ञानिक योगदान

- While glaciers have been studied in Europe since at least the 19th century, South Cascade has provided invaluable insights.  
जहां यूरोप में 19वीं सदी से ग्लेशियरों का अध्ययन किया जा रहा है, वहीं साउथ कैस्केड ने अमूल्य जानकारीयां प्रदान की हैं।
- "Many scientific methods used to measure glaciers were developed here," said Andrew Fountain, professor emeritus at Portland State University.  
"ग्लेशियरों को मापने की कई वैज्ञानिक विधियां यहीं विकसित की गईं," पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस एंड्रयू फाउंटेन ने कहा।
- Ice radar technology was pioneered here, allowing researchers to measure glacier thickness.  
यहां बर्फीले रडार तकनीक विकसित की गई, जिससे वैज्ञानिक ग्लेशियर की मोटाई मापने में सक्षम हुए।
- The glacier may have existed for over a million years.  
यह ग्लेशियर संभवतः एक मिलियन वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है।

## Why South Cascade Glacier Is Ideal for Study

### साउथ कैस्केड ग्लेशियर अध्ययन के लिए क्यों उपयुक्त है

- It is located in a basin at the head of the South Fork of the Cascade River, which flows into Puget Sound.  
यह कैस्केड नदी की दक्षिणी शाखा के स्रोत पर एक घाटी में स्थित है, जो पुजेट साउंड में गिरती है।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



- The basin spans more than 2 square miles, making it an ideal study site.  
यह घाटी 2 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिससे यह अध्ययन के लिए आदर्श बनती है।
- Glaciers are constantly moving, carving valleys and eroding rocks beneath them.  
ग्लेशियर लगातार गतिशील रहते हैं, घाटियों का निर्माण करते हैं और उनके नीचे की चट्टानों को क्षरण करते हैं।
- Measurements at South Cascade Glacier began in 1958, according to the U.S. Geological Survey.  
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, साउथ कैस्केड ग्लेशियर में माप 1958 में शुरू हुआ।
- Over nearly seven decades, glaciologists have tracked how the glacier is responding to climate change.  
लगभग सात दशकों में, ग्लेशियर वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया कि यह ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है।
- संभावनाएं हैं, और भारत को अपनी अध्यक्षता का उपयोग कर संस्थागत चुनौतियों का समाधान करना चाहिए।



## TOPICS COVERED (PCS Special)

### 1. Namibia Inaugurates Its First Woman President Nandi-Ndaitwah

नामीबिया ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति नंदी-नडाइटवाह को शपथ दिलाई

#### WINDHOEK

### Namibia inaugurates its first woman President Nandi-Ndaitwah



AP

PCS

Namibia on Friday inaugurated its first female President, Netumbo Nandi-Ndaitwah, aged 72, extending SWAPO's 35-year rule. A liberation veteran since age 14, she secured 58% of votes in chaotic elections. Ms. Nandi-Ndaitwah pledged economic growth, universal healthcare, and climate action. AFP

### Namibia Inaugurates Its First Woman President Nandi-Ndaitwah

नामीबिया ने अपनी पहली महिला राष्ट्रपति नंदी-नडाइटवाह को शपथ दिलाई

Namibia on Friday inaugurated its first female President, Netumbo Nandi-Ndaitwah, aged 72.

नामीबिया ने शुक्रवार को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति, नेटुम्बो नंदी-नडाइटवाह, उम्र 72 वर्ष, को शपथ दिलाई।

- Her election extends SWAPO's 35-year rule.  
उनके चुनाव से SWAPO का 35 वर्षों का शासन जारी रहा।
- A liberation veteran since age 14, she secured 58% of votes in chaotic elections.  
स्वतंत्रता संग्राम की योद्धा, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र से संघर्ष किया, उन्होंने अशांत चुनावों में 58% वोट हासिल किए।
- Ms. Nandi-Ndaitwah pledged economic growth, universal healthcare, and climate action.  
सुश्री नंदी-नडाइटवाह ने आर्थिक विकास, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और जलवायु कार्रवाई का संकल्प लिया।



**TELEGRAM CHANNEL:** <https://t.me/patrioticIAS>

**YOUTUBE CHANNEL:** <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

**CONTACT: 9971932488**



PATRIOTIC IAS

**Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur**  
**Email Id : [info@patrioticias.in](mailto:info@patrioticias.in)**  
**Contact Number : 9971932488**  
**Website : [patrioticias.in](http://patrioticias.in)**